

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 10—अक्तूबर 16, 2015 (आश्विन 18, 1937)

No. 41] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 10—OCTOBER 16, 2015 (ASVINA 18, 1937)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित
अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leaves etc. of Government Officers issued by
the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 अक्तूबर 2015

थल सेना विभाग

सं. 240, दिनांक 17 सितम्बर 2015—थल सेना अनुदेश 15/79 व उसमें जारी संशोधनों के अन्तर्गत राष्ट्रपति 05 वर्ष की अवधि के लिए सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:—

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(अल्पकालीन कमीशन)

कैप्टन के पद पर (परख पर)

कमीशन की ज्येष्ठता

डी एस—12546एम कप्तान (सुश्री) नेहा पराशर — 06—03—2014

वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 06—09—2010 से दी जाती है ।

(इसमें 36 माह एमडीएस की डिग्री होने तथा 06 माह अस्पताल में नियुक्ति के लिए दी गई ज्येष्ठता भी सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी।)

09 अगस्त 2014 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहाँ तक इसका संबंध उपयुक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है।

डी एस-12486एच कप्तान ध्रुव शर्मा — 09-02-2013

वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 09-02-2010 से दी जाती है।

(इसमें 36 माह एमडीएस की डिग्री होने से संबंधित ज्येष्ठता सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी।)

22 फरवरी 2014 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहाँ तक इसका संबंध उपयुक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है।

डी एस-12498एक्स कप्तान शेदटी गौरव — 19-02-2013

वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 19-02-2010 से दी जाती है।

(इसमें 36 माह एमडीएस की डिग्री होने से संबंधित ज्येष्ठता सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी।)

22 फरवरी 2014 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहाँ तक इसका संबंध उपयुक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है।

एच एस संधू
ब्रिगे
डीडीजीडीएस (पी)

सेना शाखा

सं. 241, दिनांक 17 सितम्बर 2015—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारी को सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

लै0 बनाया जाता है

गोपाल सिंह

टीए-42790

(इन्जीनियर टीए)

13 सितम्बर 2010

भारत भूषण जोशी
अवर सचिव

थलसेना विभाग

सं. 242, दिनांक 18 सितम्बर 2015—थलसेना अनुदेश 37/78 व उसमें जारी संशोधनों के अन्तर्गत राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:-

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(स्थाई कमीशन)

मेजर जनरल से लै0 जनरल के पद पर

निजी संख्या	पद	नाम	पदोन्नति की तिथि
डी आर -10358एम	मेजर जनरल	तपस कुमार बन्द्योपाध्याय	23-03-2015 (वैकल्पिक वरीयता 23-03-2015 से दी जाती है जोकि वेतन और भत्ते पर प्रभावी नहीं होगी)

मेजर से ले0 कर्नल के पद पर

निजी संख्या	पद	नाम	टिप्पणी
डी आर-10594एन	मेजर	अविनाश कुमार	20-02-2014
डी आर-10604एम	मेजर	अशोक कुमार	03-10-2014
डी आर-10553के	मेजर	अतुल बाली	08-04-2014

थलसेना अनुदेश 15/79 व उसमें जारी संशोधनों के अन्तर्गत राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:-

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(अस्थाई कमीशन)

मेजर से ले0 कर्नल के पद पर

निजी संख्या	नाम	टिप्पणी
डी एस-12110 एफ	मेजर (सुश्री) अनिता राज	07-02-2015

कैप्टन से मेजर के पद पर

निजी संख्या	पद	नाम	पदोन्नति की तिथि
डी एस-12463एफ	कप्तान	सुनील कुमार गोयल	09-04-2013

एच एस संधू
ब्रिगे
डीडीजीडीएस (पी)

सेना शाखा

सं. 243, दिनांक 18 सितम्बर 2015—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारी को सहर्ष पदोन्नति करने की अनुमति प्रदान करते हैं :-

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

ले0 कर्नल बनाया जाता है

मेजर वी आर सुब्रमनियन	टीए- 42455	(इन्जीनियर टीए)	23 मार्च 2015
-----------------------	------------	-----------------	---------------

मेजर बनाया जाता है

कैप्टन कंवर प्रीत सिंह सन्धु	(टीए-42672)	(इन्फैन्ट्री)	11 दिसम्बर 2014
कैप्टन अश्वनी भुरिया	(टीए-42670)	(इन्फैन्ट्री)	04 नवम्बर 2014
कैप्टन रामचन्द्र सिंह नागरकोटी	(टीए-42675)	(इन्फैन्ट्री)	27 नवम्बर 2014
कैप्टन विक्रम सिंह	(टीए-42676)	(इन्फैन्ट्री)	14 नवम्बर 2014
कैप्टन रोहित राजेन्द्र गडकरी	(टीए-42608)	(इन्फैन्ट्री)	02 जून 2014

कैप्टन बनाया जाता है

ले0 गोपाल सिंह	टी-42790	(इन्जीनियर टीए)	13 सितम्बर 14
----------------	----------	-----------------	---------------

भारत भूषण जोशी
अवर सचिव

सेना शाखा
नियमित सेना
सेना सेवा कोर (पूर्ति)

सं. 244, दिनांक 21 सितम्बर 2015—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं।

नायब सूबेदार लिपिक (एसडी)

हवलदार	सुरेश कुमार	6386635के	अब	जेसी-668412एक्स	01 जुलाई 2012
हवलदार	परेस बिस्वास	6388459डब्ल्यू	अब	जेसी-668413ए	01 जुलाई 2012
हवलदार	प्रेम कुमार प्रसाद	6387178एन	अब	जेसी-668414एच	01 जुलाई 2012
हवलदार	छबी लाल राम	6387983एक्स	अब	जेसी-668415एल	19 जून 2012*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जून 2012 से दी जायेगी)

हवलदार	सुखदेव सिंह	6388684एल	अब	जेसी-668416एन	02 जुलाई 2012*
हवलदार	महावीर वर्मा	6388688एफ	अब	जेसी-668417डब्ल्यू	02 जुलाई 2012*
हवलदार	राधे श्याम प्रजापति	6387432एम	अब	जेसी-668418वाई	02 जुलाई 2012*
हवलदार	दिनेश कुमार	6387068वाई	अब	जेसी-668419एफ	02 जुलाई 2012*
हवलदार	सजीव आर	6387232डब्ल्यू	अब	जेसी-668420डब्ल्यू	01 जुलाई 2012
हवलदार	असित कुमार पंजा	6383982एक्स	अब	जेसी-668421वाई	02 जुलाई 2012*
हवलदार	सत्यनारायन साहू	6386309एफ	अब	जेसी-668422एफ	01 जुलाई 2012
हवलदार	लक्ष्मण कुमार पत्रो	6388206एफ	अब	जेसी-668435वाई	01 जुलाई 2012
हवलदार	बागड जीवराज रामजी	6388273एफ	अब	जेसी-668436एफ	01 जुलाई 2012
हवलदार	गणेश्वर खंडाई	6388287एम	अब	जेसी-668437के	03 जुलाई 2012*
हवलदार	प्रसन्ना कुमार मंथन	6388297डब्ल्यू	अब	जेसी-668438एम	01 जुलाई 2012
हवलदार	प्रदीप्ता कुमार बेहरा	6388299एफ	अब	जेसी-668439पी	02 जुलाई 2012*
हवलदार	राम कुमार	6386159डब्ल्यू	अब	जेसी-668440के	01 जुलाई 2012

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2012 से दी जायेगी)

हवलदार	ऐम के झाझरीया	6386217पी	अब	जेसी-668441एम	01 जुलाई 2012
हवलदार	अनील कुमार	6386227वाई	अब	जेसी-668442पी	01 जुलाई 2012
हवलदार	ओम प्रकाश	6388350डब्ल्यू	अब	जेसी-668443एक्स	01 जुलाई 2012
हवलदार	चित्तरंजन पाडी	6388359एल	अब	जेसी-668444ए	03 जुलाई 2012*
हवलदार	जवहार लाल मंडल	6388391ए	अब	जेसी-668445एच	02 जुलाई 2012*

हवलदार	वी गोपीनाथन	6388449एम	अब	जेसी-668446एल	02 जुलाई 2012*
हवलदार	टी अरोकीयासामी विलसन	6388552एक्स	अब	जेसी-668447एन	01 जुलाई 2012
हवलदार	थोरात संजय देवराज	6388582पी	अब	जेसी-668448डब्ल्यू	01 जुलाई 2012
हवलदार	दिलीप सिंह ठाकुर	6388669डब्ल्यू	अब	जेसी-668449वाई	01 जुलाई 2012
हवलदार	कृष्णा पाल राजपूत	6384737एफ	अब	जेसी-668450एन	02 जुलाई 2012*
हवलदार	बिध्या धर सरकार	6386936एन	अब	जेसी-668451डब्ल्यू	01 जुलाई 2012
हवलदार	भुजबल मारुती चंद्र भान	6387427एफ	अब	जेसी-668452वाई	02 जुलाई 2012*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2012 से दी जायेगी)

हवलदार	बशिष्ट ओझा	6387465एक्स	अब	जेसी-668453एफ	01 जुलाई 2012
हवलदार	स्वराज्य कुमार स्वैन	6388210के	अब	जेसी-668454के	01 जुलाई 2012
हवलदार	चंचल सिंह कपकोटी	6386461पी	अब	जेसी-668455एम	01 जुलाई 2012
हवलदार	सुरेश कुमार शर्मा	6386651एफ	अब	जेसी-668456पी	01 जुलाई 2012
हवलदार	तेजपाल सिंह	6387976एफ	अब	जेसी-668457एक्स	01 जुलाई 2012
हवलदार	बिक्रम सिंह नेगी	13898307ए	अब	जेसी-668458ए	01 जुलाई 2012
हवलदार	दिलीप कुमार स्वर्नकार	6385563वाई	अब	जेसी-668459एच	01 जुलाई 2012
हवलदार	तिलक राम	6382274वाई	अब	जेसी-668469एम	09 जुलाई 2012*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार	सलमान अहमद	6387060एम	अब	जेसी-668470एफ	01 जुलाई 2012
हवलदार	जगमोहन महाराना	6388202एल	अब	जेसी-668471के	01 जुलाई 2012
हवलदार	मोहन के करुन	6388259ए	अब	जेसी-668472एम	01 जुलाई 2012
हवलदार	अनंता कुमार दोलई	6386197एम	अब	जेसी-668473पी	01 जुलाई 2012
हवलदार	भरत चौगले	6387698वाई	अब	जेसी-668474एक्स	01 जुलाई 2012
हवलदार	सोनटक्के प्रताप सुदामजी	6388526डब्ल्यू	अब	जेसी-668475ए	02 जुलाई 2012*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2012 से दी जायेगी)

हवलदार	पी पी सदाशिव	6388671एन	अब	जेसी-668476एच	01 जुलाई 2012
हवलदार	टुट्टु दत्ता	6382227एफ	अब	जेसी-668477एल	01 जुलाई 2012
हवलदार	मोहन प्रसाद	13896047एफ	अब	जेसी-668478एन	02 जुलाई 2012*
हवलदार	बदन सिंह	6385789के	अब	जेसी-668479डब्ल्यू	10 जुलाई 2012*
हवलदार	अनंत कुमार यादव	6387899एक्स	अब	जेसी-668480एल	01 जुलाई 2012

हवलदार	वकील अहमद	6387927वाई	अब	जेसी-668481एन	09 जुलाई 2012*
हवलदार	जगपाल	6386657एच	अब	जेसी-668482डब्ल्यू	04 जुलाई 2012*
हवलदार	ढोके दत्तात्रय सोपनराव	6388260पी	अब	जेसी-668491एक्स	18 जुलाई 2012*
हवलदार	संजीत कुमार सरकार	6386201के	अब	जेसी-668492ए	19 जुलाई 2012*
हवलदार	पटेल अयुबखान बालेखान	6387436एच	अब	जेसी-668493एच	18 जुलाई 2012*
हवलदार	प्रफुल्ल कुमार लैंका	6387876डब्ल्यू	अब	जेसी-668494एल	16 जुलाई 2012*
हवलदार	लाल बाबु राय	6383740पी	अब	जेसी-668495एन	03 जुलाई 2012*
हवलदार	राजेंद्र प्रसाद जंगीर	6382723एच	अब	जेसी-668500एन	21 जुलाई 2012*
हवलदार	भवानी धनसुख भाई सवाजी भाई	6383876वाई	अब	जेसी-668501डब्ल्यू	21 जुलाई 2012*
हवलदार	दीदार सिंह मान	6387213एल	अब	जेसी-668502वाई	24 जुलाई 2012*
हवलदार	चंदगी राम जंगरा	6386624एक्स	अब	जेसी-668503एफ	21 जुलाई 2012*
हवलदार	पूरन सिंह	6387298एम	अब	जेसी-668521के	23 जुलाई 2012*
हवलदार	अवतार सिंह	6388697एच	अब	जेसी-668522एम	23 जुलाई 2012*
हवलदार	सुखदेव चंद्र मंडल	6388465के	अब	जेसी-668523पी	24 जुलाई 2012*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2012 से दी जायेगी)

हवलदार	राम गोपाल	6386671पी	अब	जेसी-668524एक्स	01 अगस्त 2012
हवलदार	अशोक कुमार	6386682एफ	अब	जेसी-668525ए	01 अगस्त 2012
हवलदार	लखी राम वर्म	6386683के	अब	जेसी-668526एच	01 अगस्त 2012
हवलदार	बलदेव सिंह बरसल	6386897ए	अब	जेसी-668527एल	01 अगस्त 2012
हवलदार	भरत सिंह कुलहरी	6386908एफ	अब	जेसी-668528एन	01 अगस्त 2012
हवलदार	अजीत सिंह	6386621के	अब	जेसी-668529डब्ल्यू	01 अगस्त 2012
हवलदार	कंवर पाल	6386626एच	अब	जेसी-668530एल	01 अगस्त 2012
हवलदार	बिस्वजीत संत्रा	6386943के	अब	जेसी-668531एन	01 अगस्त 2012
हवलदार	शाह नवाज	6387069एफ	अब	जेसी-668532डब्ल्यू	01 अगस्त 2012
हवलदार	देबेंद्र कुमार जेना	6388452एम	अब	जेसी-668533वाई	01 अगस्त 2012
हवलदार	मनोरंजन दास	6388292एक्स	अब	जेसी-668544एल	22 जुलाई 2012*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2012 से दी जायेगी)

हवलदार	संतोश कुमार सैनी	6386905एन	अब	जेसी-668545एन	07 अगस्त 2012*
हवलदार	हरी पादा बिस्वास	6386939एफ	अब	जेसी-668546डब्ल्यू	06 अगस्त 2012*
हवलदार	गौरंगा चरण सुत्तार	6386941वाई	अब	जेसी-668547वाई	01 अगस्त 2012
हवलदार	सुरेंद्र सिंह	6387091एम	अब	जेसी-668548एफ	01 अगस्त 2012
हवलदार	धान सिंह	6387103डब्ल्यू	अब	जेसी-668549के	01 अगस्त 2012
हवलदार	ईदाला श्रिनिवासु	6387149वाई	अब	जेसी-668550वाई	01 अगस्त 2012
हवलदार	नरेश चंद्र गिरी	6388309ए	अब	जेसी-668551एफ	01 अगस्त 2012
हवलदार	हरीश चंद्र कंडपाल	6382056ए	अब	जेसी-667986एक्स	01 फ़रवरी 2011
हवलदार	नबाब खान	6386669एक्स	अब	जेसी-668554पी	01 अगस्त 2012
हवलदार	बिस्वनाथ डे	6386698एम	अब	जेसी-668555एक्स	01 अगस्त 2012
हवलदार	महावीर प्रसाद नागर	6386927एम	अब	जेसी-668556ए	06 अगस्त 2012*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जायेगी)

हवलदार	रंजीत सिंह	6388695एक्स	अब	जेसी-668557एच	01 अगस्त 2012
हवलदार	तापस कुमार मंडल	6387282एफ	अब	जेसी-668560एच	01 सितम्बर 2012
हवलदार	राकेश कुमार	6390656एक्स	अब	जेसी-668567एम	22 अगस्त 2012*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2012 से दी जायेगी)

हवलदार	दौला राम	6386664वाई	अब	जेसी-668568पी	16 अगस्त 2012*
--------	----------	------------	----	---------------	----------------

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जायेगी)

हवलदार	अरुन कुमार मिश्रा	6386150एफ	अब	जेसी-668569एक्स	01 सितम्बर 2012
हवलदार	दीपांकर कुमार पौल	6387280डब्ल्यू	अब	जेसी-668570एम	01 सितम्बर 2012
हवलदार	अशोक कुमार घोश	6387292एल	अब	जेसी-668571पी	01 सितम्बर 2012
हवलदार	उमा शंकर सिंह	6387293एन	अब	जेसी-668572एक्स	01 सितम्बर 2012
हवलदार	कुंदन कुमार	6387295वाई	अब	जेसी-668573ए	01 सितम्बर 2012
हवलदार	तपन सरकार	6387302के	अब	जेसी-668574एच	01 सितम्बर 2012
हवलदार	अरुन कुमार शर्मा	6387311एल	अब	जेसी-668575एल	01 सितम्बर 2012
हवलदार	दिनेश चंद्र यादव	13898172के	अब	जेसी-668576एन	01 सितम्बर 2012
हवलदार	अत्मा नंद तिवारी	13898329वाई	अब	जेसी-668577डब्ल्यू	01 सितम्बर 2012
हवलदार	क्रिपलानी राजू नेभन दास	6387374एन	अब	जेसी-668578वाई	01 सितम्बर 2012
हवलदार	जटार रामनाथ घमाजी	6387435ए	अब	जेसी-668579एफ	01 सितम्बर 2012

हवलदार	रबिंद्र नाथ गजर	6388701ए	अब	जेसी-668580डब्ल्यू	01 सितम्बर 2012
हवलदार	पेरुल इस्लाम	6388714एक्स	अब	जेसी-668581वाई	01 सितम्बर 2012
हवलदार	रघुनाथन एन वी	6388728एक्स	अब	जेसी-668582एफ	01 सितम्बर 2012
हवलदार	श्रवन कुमार शर्मा	6387491वाई	अब	जेसी-668583के	01 सितम्बर 2012
हवलदार	जय प्रकाश सिंह	6387507वाई	अब	जेसी-668584एम	01 सितम्बर 2012
हवलदार	संतोष कुमार पी	6388741एफ	अब	जेसी-668585पी	01 सितम्बर 2012
हवलदार	हरिहर मौर्या	6387433पी	अब	जेसी-668588एच	01 सितम्बर 2012
हवलदार	राम सिंह शेखावत	6386198पी	अब	जेसी-668347एच	11 अप्रैल 2012*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अप्रैल 2012 से दी जायेगी)

हवलदार	हरि ओम शर्मा	6386686एक्स	अब	जेसी-668590ए	15 सितम्बर 2012*
--------	--------------	-------------	----	--------------	------------------

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 25 अगस्त 2012 से दी जायेगी)

हवलदार	बेदरे संजय ओंकार	6388551एफ	अब	जेसी-668591एच	01 सितम्बर 2012
हवलदार	ठाकरे नीलकंठ चिंतामन	6388531एफ	अब	जेसी-668592एल	14 सितम्बर 2012*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2012 से दी जायेगी)

हवलदार	भुसारी जयंत प्रभाकरराव	6388542एन	अब	जेसी-668600वाई	17 सितम्बर 2012*
--------	------------------------	-----------	----	----------------	------------------

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 25 अगस्त 2012 से दी जायेगी)

हवलदार	शाहुल हमीद वी ई	6387209एच	अब	जेसी-668601एफ	26 सितम्बर 2012*
हवलदार	वंजारी भगवानदास यशवंतराव	6388578एम	अब	जेसी-668602के	14 सितम्बर 2012*
हवलदार	शोभा नाथ	6388775पी	अब	जेसी-668603एम	01 अक्टूबर 2012
हवलदार	वृन्दावन मिश्रा	6388647एक्स	अब	जेसी-668605एक्स	14 सितम्बर 2012*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2012 से दी जायेगी)

हवलदार	राजू टी के	6388690वाई	अब	जेसी-668622एक्स	23 अक्टूबर 2012*
हवलदार	रोहिताश कुमार गडवाल	6388746ए	अब	जेसी-668623ए	20 अक्टूबर 2012*
हवलदार	राम शिरोमनी दुबे	6388772एफ	अब	जेसी-668624एच	18 अक्टूबर 2012*
हवलदार	सर्तेंद्र कुमार सैनी	6388783एन	अब	जेसी-668625एल	19 अक्टूबर 2012*
हवलदार	प्रभु दयाल	6386912के	अब	जेसी-668626एन	19 अक्टूबर 2012*
हवलदार	श्री हरी राव वनमाली	6387154के	अब	जेसी-668627डब्ल्यू	23 अक्टूबर 2012*
हवलदार	अनंत कुमार ज्ञान	6388390एक्स	अब	जेसी-668628वाई	23 अक्टूबर 2012*
हवलदार	सुनील कुमार श्रीवास्तवा	6388717एल	अब	जेसी-668629एफ	22 अक्टूबर 2012*

हवलदार	मनोज कुमार दीक्षित	6387532एक्स	अब	जेसी-668630डब्ल्यू	23 अक्टूबर 2012*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जायेगी)					
हवलदार	त्रिभुवन पाण्डे	13896087एच	अब	जेसी-668632एफ	06 नवम्बर 2012*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 20 अक्टूबर 2012 से दी जायेगी)					
हवलदार	बिजय कुमार दास	6387873एच	अब	जेसी-668641एच	06 नवम्बर 2012*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जायेगी)					
हवलदार	मोहम्मद फारुख खॉन	6383654के	अब	जेसी-668642एल	07 नवम्बर 2012*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 20 अक्टूबर 2012 से दी जायेगी)					
हवलदार	चवान प्रदिप रामचंद्र	6388580के	अब	जेसी-668643एन	08 नवम्बर 2012*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जायेगी)					
हवलदार	बृन्दाबन प्रधान	6387774ए	अब	जेसी-668644डब्ल्यू	07 नवम्बर 2012*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जायेगी)					
हवलदार	देवेंद्र कुमार शर्मा	6388779एल	अब	जेसी-668645वाई	07 नवम्बर 2012*
हवलदार	करनैल सिंह	6388744पी	अब	जेसी-668646एफ	25 अक्टूबर 2012*
हवलदार	बसंत कुमार साहू	6388796एल	अब	जेसी-668647के	19 अक्टूबर 2012*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जायेगी)					
हवलदार	उदय सिंह	6384200एच	अब	जेसी-668648एम	07 नवम्बर 2012*
हवलदार	गोपाल सिंह बोरा	6384399पी	अब	जेसी-668649पी	06 नवम्बर 2012*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जायेगी)					
हवलदार	विनोद कुमार साहू	6388204डब्ल्यू	अब	जेसी-668650के	07 नवम्बर 2012*
हवलदार	शिव राम	6386453डब्ल्यू	अब	जेसी-668653एक्स	16 नवम्बर 2012*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जायेगी)					
हवलदार	बिनोद सारंगी	6387314वाई	अब	जेसी-668654ए	07 नवम्बर 2012*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 20 अक्टूबर 2012 से दी जायेगी)					
हवलदार	राजेश शर्मा	6388820डब्ल्यू	अब	जेसी-668655एच	07 नवम्बर 2012*
हवलदार	शिव प्रसाद मौर्या	6387858एन	अब	जेसी-668656एल	06 नवम्बर 2012*
हवलदार	रमेश चंद	6387917पी	अब	जेसी-668657एन	08 नवम्बर 2012*
हवलदार	जगान्नथ पाण्डा	6388450एफ	अब	जेसी-668658डब्ल्यू	08 नवम्बर 2012*

हवलदार	राम किशन	6388672डब्ल्यू	अब	जेसी-668659वाई	08 नवम्बर 2012*
हवलदार	भानू प्रसाद दिववेदी	6388677पी	अब	जेसी-668660एन	15 नवम्बर 2012*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जायेगी)					
हवलदार	क्रिशन कुमार	6387663एच	अब	जेसी-668661डब्ल्यू	06 नवम्बर 2012*
हवलदार	रबिंद्र कुमार नायक	6388698एल	अब	जेसी-668662वाई	16 नवम्बर 2012*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 20 अक्टूबर 2012 से दी जायेगी)					
हवलदार	देव दुलाल घोष	6383981पी	अब	जेसी-668663एफ	07 नवम्बर 2012*
हवलदार	हरवीर सिंह	6387852एम	अब	जेसी-668664के	07 नवम्बर 2012*
हवलदार	प्रमोद सिंह यादव	6387881एफ	अब	जेसी-668665एम	06 नवम्बर 2012*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जायेगी)					
हवलदार	अर्जुन सिंह	6387544एम	अब	जेसी-668667एक्स	08 नवम्बर 2012*
हवलदार	अशोक कुमार शर्मा	6387883एम	अब	जेसी-668668ए	06 नवम्बर 2012*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जायेगी)					
हवलदार	राम चंद्र भट्ट	6387721एफ	अब	जेसी-668669एच	08 नवम्बर 2012*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 20 अक्टूबर 2012 से दी जायेगी)					
हवलदार	विनोद कुमार	6386849ए	अब	जेसी-668670एक्स	17 नवम्बर 2012*
हवलदार	प्रदीप्ता कुमार सतपथी	6387829वाई	अब	जेसी-668671ए	16 नवम्बर 2012*
हवलदार	सुजान सिंह	6387924एल	अब	जेसी-668672एच	18 नवम्बर 2012*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जायेगी)					
हवलदार	रवींद्र सिंह	6388774एम	अब	जेसी-668673एल	16 नवम्बर 2012*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 20 अक्टूबर 2012 से दी जायेगी)					
हवलदार	पी चंद्र शेखर राव	6388864एन	अब	जेसी-668680एफ	22 नवम्बर 2012*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जायेगी)					
हवलदार	संतोष कुमार बेहरा	6388355पी	अब	जेसी-668681के	15 नवम्बर 2012*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जायेगी)					
हवलदार	राजेश कुमार वालिया	6387673एम	अब	जेसी-668682एम	23 नवम्बर 2012*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 20 अक्टूबर 2012 से दी जायेगी)					
हवलदार	कुरुपानिधि साहू	6387875एन	अब	जेसी-668683पी	10 नवम्बर 2012*

हवलदार सुरेन्द्र 6387908एन अब जेसी-668684एक्स 20 नवम्बर 2012*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जायेगी)

हवलदार किशलय पीरी 6388879डब्ल्यू अब जेसी-668685ए 01 दिसम्बर 2012

हवलदार मोहन यादव 6387985एच अब जेसी-668693वाई 04 दिसम्बर 2012*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2012 से दी जायेगी)

हवलदार माकडे विनोद दाजिबा 6388838एम अब जेसी-668694एफ 01 दिसम्बर 2012*

हवलदार लक्ष्मण पट्टनायक 6388853एफ अब जेसी-668695के 20 नवम्बर 2012*

हवलदार साबू के अब्राहम 6387093एक्स अब जेसी-668696एम 17 नवम्बर 2012*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जायेगी)

हवलदार सुकंता चक्रवर्ती 6387751वाई अब जेसी-668697पी 17 नवम्बर 2012*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 20 अक्टूबर 2012 से दी जायेगी)

हवलदार हलधर चौहान 6388668एन अब जेसी-668698एक्स 03 दिसम्बर 2012*

हवलदार दीगर सिंह कंयाल 6387528पी अब जेसी-668699ए 01 दिसम्बर 2012*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जायेगी)

हवलदार केशव चंद्र मंडल 6387613एक्स अब जेसी-668700के 30 नवम्बर 2012*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 20 अक्टूबर 2012 से दी जायेगी)

हवलदार सुबेदु बिसवास 13896353डब्ल्यू अब जेसी-668701एम 30 नवम्बर 2012*

हवलदार थोरत संजु राजा 6387888एल अब जेसी-668702पी 26 नवम्बर 2012*

हवलदार कदम सुनिल काशिराम 6387891एल अब जेसी-668703एक्स 30 नवम्बर 2012*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जायेगी)

हवलदार काश्मीर सिंह 6388867एफ अब जेसी-668704ए 01 दिसम्बर 2012

हवलदार जाधव संभाजी दत्तात्रय 6388902वाई अब जेसी-668705एच 01 दिसम्बर 2012

हवलदार पवार अनिल मारुती 6388905एम अब जेसी-668706एल 01 दिसम्बर 2012

हवलदार पवार हनमंत दादासो 6388925ए अब जेसी-668707एन 01 दिसम्बर 2012

हवलदार मनी राम सिंह 6387977के अब जेसी-668708डब्ल्यू 01 दिसम्बर 2012

हवलदार गोकुल चंद यादव 6388729ए अब जेसी-668715एम 17 दिसम्बर 2012*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 20 अक्टूबर 2012 से दी जायेगी)

हवलदार माहेश्वर गिरि 6388802एन अब जेसी-668716पी 30 नवम्बर 2012*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जायेगी)

हवलदार	सुरेश कुमार मिश्रा	6387750डब्ल्यू	अब	जेसी-668717एक्स	01 दिसम्बर 2012*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 20 अक्टूबर 2012 से दी जायेगी)					
हवलदार	मानकार लहुराज अंकुश	6388915डब्ल्यू	अब	जेसी-668718ए	01 दिसम्बर 2012
हवलदार	गवळी विजय बाबु	6388923पी	अब	जेसी-668719एच	01 दिसम्बर 2012
हवलदार	नागेंद्र दास	6387878एफ	अब	जेसी-668720एक्स	01 दिसम्बर 2012
हवलदार	रघुवर	6387975वाई	अब	जेसी-668721ए	01 दिसम्बर 2012
हवलदार	हेमंत कुमार चौधरी	6391526एफ	अब	जेसी-668731के	03 दिसम्बर 2012*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 20 अक्टूबर 2012 से दी जायेगी)					
हवलदार	राजेश कुमार	6388680पी	अब	जेसी-668732एम	30 नवम्बर 2012*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जायेगी)					
हवलदार	गंगा शाय शर्मा	6387855ए	अब	जेसी-668733पी	10 दिसम्बर 2012*
हवलदार	श्रवण राम	6386687ए	अब	जेसी-668734एक्स	10 दिसम्बर 2012*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2012 से दी जायेगी)					
हवलदार	हरी सिंह	6388815एल	अब	जेसी-668769एन	27 दिसम्बर 2012*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जायेगी)					
हवलदार	प्रकाश चंद गुर्जर	6387567एन	अब	जेसी-668770एच	24 दिसम्बर 2012*
हवलदार	अभय कुमार पाठक	6387617एन	अब	जेसी-668771एल	27 दिसम्बर 2012*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 20 अक्टूबर 2012 से दी जायेगी)					
हवलदार	पाटिल रुद्र गौडा	6387862डब्ल्यू	अब	जेसी-668772एन	28 दिसम्बर 2012*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जायेगी)					
हवलदार	एन डंडा पानी रेड्डी	6388874एक्स	अब	जेसी-668773डब्ल्यू	29 दिसम्बर 2012*
हवलदार	अजय कुमार मिश्रा	6388894एल	अब	जेसी-668774वाई	01 जनवरी 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2012 से दी जायेगी)					
हवलदार	हरजीत सिंह	6387926डब्ल्यू	अब	जेसी-668802ए	05 जनवरी 2013*
हवलदार	कृष्ण सरकार	6388861ए	अब	जेसी-668803एच	31 दिसम्बर 2012*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जायेगी)					
हवलदार	अमृत सिंह	6387662ए	अब	जेसी-668804एल	09 जनवरी 2013*

हवलदार देवेंद्र कुमार कुशवां 6387217एफ अब जेसी-668805एन 09 जनवरी 2013*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 22 दिसम्बर 2012 से दी जायेगी)

हवलदार गोडसे बाळासाहेब साहेबराव 6388353के अब जेसी-668806डब्ल्यू 09 जनवरी 2013*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2013 से दी जायेगी)

दीपक नारंग
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 245, दिनांक 21 सितम्बर 2015—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :—

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

महार रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार	रविन्द्र सिंह	4567441के (अब जे. सी. 571308ए)	15 दिसम्बर 2014
	(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 05 अगस्त 2014)		
हवलदार	तायडे विजय प्रभाकर	4564798पी (अब जे. सी. 571309एच)	20 दिसम्बर 2014
	(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 20 सितम्बर 2014)		
हवलदार	उत्तम सिंह राणा	4567604एम (अब जे. सी. 571310एक्स)	28 दिसम्बर 2014
	(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2014)		
हवलदार	भगवान सिंह	4561814डब्ल्यू (अब जे. सी. 571311ए)	06 जनवरी 2015
	(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 28 अक्टूबर 2014)		
हवलदार	धर्मेन्द्र	4565970एक्स (अब जे. सी. 571312एच)	31 जनवरी 2015
	(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2014)		
हवलदार	दिनेश कुमार	4563735ए (अब जे. सी. 571313एल)	09 फरवरी 2015
	(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 09 दिसम्बर 2014)		
हवलदार	कदम संतोष भीकाजी	4566716ए (अब जे. सी. 571314एन)	07 फरवरी 2015
	(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 13 दिसम्बर 2014)		
हवलदार	सुरिन्दर कुमार	4564520एन (अब जे. सी. 571315डब्ल्यू)	16 फरवरी 2015
	(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 23 दिसम्बर 2014)		
हवलदार	नवले बाबूराव सहदेव राव	4563891के (अब जे. सी. 571316वाई)	17 फरवरी 2015*
हवलदार	खिल्लारे सुधीर शामराव	4566913एच (अब जे. सी. 571317एफ)	07 फरवरी 2015*
	*(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2015)		
हवलदार	हुकुम सिंह परिहार	4567627एन (अब जे. सी. 571318के)	28 फरवरी 2015
	(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 06 जनवरी 2015)		
हवलदार	गजभिये रामभाऊ महादेव	4563886वाई (अब जे. सी. 571319एम)	07 मार्च 2015@

हवलदार	शंकर सिंह	4566553एक्स (अब जे. सी. 571320एफ)	07 मार्च 2015@
@ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 22 जनवरी 2015)			
हवलदार	सपताले रोहिदास सुखदेव	4564028एच (अब जे. सी. 571321के)	21 मार्च 2015#
हवलदार	शशिन कुमार सिंह	4564569के (अब जे. सी. 571322एम)	24 मार्च 2015#
# (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2015)			
हवलदार	प्रताप चन्द्र बेहरा	4564486वाई (अब जे. सी. 571323पी)	19 मार्च 2015
(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 03 फरवरी 2015)			
हवलदार	जगदीश सिंह	4564253एक्स (अब जे. सी. 571324एक्स)	10 मार्च 2015
(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 14 फरवरी 2015)			
हवलदार	महावीर सिंह	4565939एल (अब जे. सी. 571325ए)	13 मार्च 2015
(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 15 फरवरी 2015)			
हवलदार	सतीश कुमार	4563033एफ (अब जे. सी. 571326एच)	01 मार्च 2015%
हवलदार	डावरे सुभाष उद्धव	4563788वाई (अब जे. सी. 571327एल)	19 मार्च 2015%
हवलदार	माने हरिभाऊ शंकर	4564077एल (अब जे. सी. 571328एन)	21 मार्च 2015%
हवलदार	नरिन्दर सिंह	4565351के (अब जे. सी. 571329डब्ल्यू)	02 मार्च 2015%
हवलदार	सीएच ब्रिजेश कुमार दास	4566999एम (अब जे. सी. 571330एल)	01 मार्च 2015%
% (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2015)			
हवलदार	भरत तुकाराम जाधव	4563813एम (अब जे. सी. 571331एन)	06 अप्रैल 2015
(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 22 मार्च 2015)			
हवलदार	काम्बले अरुण मारुती	4562530वाई (अब जे. सी. 571332डब्ल्यू)	13 अप्रैल 2015
(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 05 अप्रैल 2015)			

दि ग्रेनेडियर्स

(नायब सूबेदार जी0 डी0 के रैंक में)

हवलदार जगरूप सिंह गुर्जर	(सं0 2684282 डब्ल्यू अब जे सी-451855 वाई)	19 सितम्बर 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी ।		
हवलदार इकबाल खान	(सं0 2686409 एम अब जे सी-451856 एफ)	14 अक्टूबर 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी		
हवलदार मोहम्मद वाहिद	(सं0 2688687 वाई अब जे सी-451857 के)	24 अक्टूबर 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी		
हवलदार शौकत अली	(सं0 2684315 डब्ल्यू अब जे सी-451858 एम)	13 अक्टूबर 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी		
हवलदार गोपाल लाल मीणा	(सं0 2686234 पी अब जे सी-451859 पी)	01 जनवरी 2015*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी		

हवलदार महेन्द्र सिंह	(सं० 2686175 एन अब जे सी-451860 के)	29 सितम्बर 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 जुलाई 2014 से दी जायेगी		
हवलदार प्रमोद कुमार	(सं० 2686119 पी अब जे सी-451861 एम)	29 सितम्बर 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 जुलाई 2014 से दी जायेगी		
हवलदार धरम वीर सिंह	(सं० 2686111 एच अब जे सी-451862 पी)	28 जनवरी 2015*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 जुलाई 2014 से दी जायेगी		
हवलदार जय सिंह	(सं० 2685236 एन अब जे सी-451863 एक्स)	27 सितम्बर 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 जुलाई 2014 से दी जायेगी ।		
हवलदार मोहम्मद रफीक अन्सारी	(सं० 2684676 पी अब जे सी-451864ए)	22 सितम्बर 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 जुलाई 2014 से दी जायेगी		
हवलदार भंवर सिंह भाटी	(सं० 2685408 एक्स अब जे सी-451865 एच)	14 अक्टूबर 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 जुलाई 2014 से दी जायेगी		
हवलदार आशीष कुमार सिंह	(सं० 2686160 एल अब जे सी-451866 एल)	14 नवम्बर 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जायेगी		
हवलदार कुशल पाल सिंह पनवर	(सं० 2685576 डब्ल्यू अब जे सी-451867 एन)	10 अक्टूबर 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी		
हवलदार रमेश कुमार	(सं० 2686661 एल अब जे सी-451868 डब्ल्यू)	03 जनवरी 2015*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जायेगी		
हवलदार योगेन्द्र सिंह	(सं० 2685403 वाई अब जे सी-451869 वाई)	11 अक्टूबर 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जायेगी		
हवलदार तयब खान	(सं० 2687987 एन अब जे सी-451870 एन)	14 नवम्बर 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जायेगी		
हवलदार अब्दुल हमीद खान	(सं० 2686749 पी अब जे सी-451871 डब्ल्यू)	04 अक्टूबर 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जायेगी		
हवलदार हरदत्त सिंह	(सं० 8033150 एन अब जे सी-451872 वाई)	01 अक्टूबर 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 अगस्त 2014 से दी जायेगी		
हवलदार ओम प्रकाश	(सं० 2686704 पी अब जे सी-451873 एफ)	03 जनवरी 2015*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 अगस्त 2014 से दी जायेगी		
हवलदार अजीत सिंह	(सं० 2685955 एम अब जे सी-451874 के)	29 सितम्बर 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 अगस्त 2014 से दी जायेगी		

हवलदार राजेश कुमार	(सं० 2686742 एल अब जे सी-451875 एम)	08 जनवरी 2015*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 अगस्त 2014 से दी जायेगी		
हवलदार राजेन्द्र चौधरी	(सं० 2686271 एच अब जे सी-451876 पी)	01 अक्टूबर 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जायेगी		
हवलदार राजू	(सं० 2685844 पी अब जे सी-451877 एक्स)	27 सितम्बर 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जायेगी		
हवलदार शाहाब खान	(सं० 2689078 एफ अब जे सी-451878ए)	15 दिसम्बर 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जायेगी		
हवलदार राम हरी	(सं० 2684842 एक्स अब जे सी-451879 एच)	11 नवम्बर 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जायेगी		
हवलदार ब्रजपाल सिंह चाहर	(सं० 2687120 डब्ल्यू अब जे सी-451880 एक्स)	05 अक्टूबर 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जायेगी		
हवलदार अल्लादीन खान	(सं० 2685166 ए अब जे सी-451881ए)	02 जनवरी 2015*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 सितम्बर 2014 से दी जायेगी		
हवलदार हरभजन सिंह	(सं० 2685513 एन अब जे सी-451882 एच)	02 नवम्बर 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 सितम्बर 2014 से दी जायेगी		
हवलदार भुपिन्दर सिंह ठाकुर	(सं० 2685631 एफ अब जे सी-451883 एल)	03 नवम्बर 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 सितम्बर 2014 से दी जायेगी		
हवलदार सुनिल कुमार	(सं० 2686335 एच अब जे सी-451884 एन)	30 दिसम्बर 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 सितम्बर 2014 से दी जायेगी		
हवलदार अब्दुल सत्तार	(सं० 2684660 के अब जे सी-451885 डब्ल्यू)	11 अक्टूबर 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 सितम्बर 2014 से दी जायेगी		
हवलदार चाँद सिंह शेखावत	(सं० 2686708 एल अब जे सी-451886 वाई)	03 जनवरी 2015*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 सितम्बर 2014 से दी जायेगी		
हवलदार विजयवीर सिंह	(सं० 2686110 ए अब जे सी-451887 एफ)	20 अक्टूबर 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 सितम्बर 2014 से दी जायेगी		
हवलदार राज पाल	(सं० 2686010 पी अब जे सी-451888 के)	21 जनवरी 2015*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 सितम्बर 2014 से दी जायेगी		
हवलदार सुशील सिंह	(सं० 2685989 ए अब जे सी-451889 एम)	31 जनवरी 2015*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी		

हवलदार शंकर लाल मीणा	(सं० 2684973 एच अब जे सी-451890 एफ)	13 अक्टूबर 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी		
हवलदार मोहन लाल मीणा	(सं० 2686045 एल अब जे सी-451891 के)	04 मार्च 2015*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी		
हवलदार बिजय शंकर सिंह	(सं० 2687310 एच अब जे सी-451892 एम)	13 जनवरी 2015*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी		
हवलदार धरमवीर	(सं० 2685867 डब्ल्यू अब जे सी-451893 पी)	02 फरवरी 2015*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी		
हवलदार छत्र पाल सिंह	(सं० 2688003 एक्स अब जे सी-451894 एक्स)	22 जनवरी 2015*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी		

(नायब सूबेदार लिपिक एस० डी० के रैंक में)

हवलदार लिपिक एस० डी० प्रदीप सिंह खत्री	(सं० 2686955 वाई अब जे सी-451895 ए॥)	01 दिसम्बर 2014
हवलदार लिपिक एस० डी० नेम सिंह	(सं० 2687071 वाई अब जे सी-451896 एच)	01 जनवरी 2015
हवलदार लिपिक एस० डी० पुट्टा राजू के	(सं० 2687093 एक्स अब जे सी-451897 एल॥)	01 जनवरी 2015
हवलदार लिपिक एस० डी० जमील हसन	(सं० 2687122 एफ अब जे सी-451898 एन)	01 फरवरी 2015
हवलदार लिपिक एस० डी० गौतम दास	(सं० 2687199 के अब जे सी-451899 डब्ल्यू॥)	01 फरवरी 2015
हवलदार लिपिक एस० डी० रमेश कुमार	(सं० 2686290 एन अब जे सी-451900 ए)	01 फरवरी 2015
हवलदार लिपिक एस० डी० गंगाधर अगस्ती	(सं० 2686901 एक्स अब जे सी-451901 एच॥)	01 फरवरी 2015
हवलदार लिपिक एस० डी० विनोद कुमार शर्मा	(सं० 2687060 एम अब जे सी-451902 एल)	01 फरवरी 2015
हवलदार लिपिक एस० डी० मुकेश कुमार सिन्हा	(सं० 2686751 एम अब जे सी-451903 एन॥)	01 फरवरी 2015
हवलदार लिपिक एस० डी० चचप्पन के सी	(सं० 2687170 एफ अब जे सी-451904 डब्ल्यू)	01 मार्च 2015

(नायब सूबेदार जी० डी० के रैंक में)

हवलदार अजमेर सिंह	(सं० 2687266 के अब जे सी-451809 के)	11 सितम्बर 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जायेगी ।		
हवलदार पुष्पेन्द्र सिंह	(सं० 2686177 वाई अब जे सी-451810 वाई)	15 दिसम्बर 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 जुलाई 2014 से दी जायेगी		
हवलदार राजबीर सिंह भदौरिया	(सं० 2685392 एक्स अब जे सी-451811 एफ)	27 दिसम्बर 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 जुलाई 2014 से दी जायेगी		
हवलदार वनिया हरिश बच्चू भाई	(सं० 2689683 पी अब जे सी-451812 के)	14 दिसम्बर 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 जुलाई 2014 से दी जायेगी		
हवलदार उपेन्द्र नाथ सिंह	(सं० 2686159 डब्ल्यू अब जे सी-451813 एम)	01 दिसम्बर 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 जुलाई 2014 से दी जायेगी		

हवलदार वेद पाल	(सं0 2686724 एच अब जे सी-451814 पी)	01 सितम्बर 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 जुलाई 2014 से दी जायेगी		
हवलदार साबु राम बेनिवाल	(सं0 2685797 एच अब जे सी-451815 एक्स)	05 जनवरी 2015*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 31 जुलाई 2014 से दी जायेगी		
हवलदार नरेश पाल	(सं0 2685850 एच अब जे सी-451816 ए)	05 सितम्बर 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जायेगी		
हवलदार चेतन कठात	(सं0 2687889 एन अब जे सी-451817 एच)	29 अगस्त 2014
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जायेगी ।		
हवलदार असमल	(सं0 2684432 एफ अब जे सी-451818 एल)	12 सितम्बर 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जायेगी		
हवलदार राम राज सिंह भदौरिया	(सं0 2685883 एन अब जे सी-451819 एन)	01 अगस्त 2014
हवलदार गजेन्द्र सिंह	(सं0 2686101 वाई अब जे सी-451820 एच)	15 दिसम्बर 2014
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जायेगी		
हवलदार प्रिन्स कुमार	(सं0 2686967 एन अब जे सी-451821 एल)	01 अगस्त 2014
हवलदार पवन कुमार	(सं0 2685330 एक्स अब जे सी-451822 एन)	04 सितम्बर 2014
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जायेगी		
हवलदार दुर्गा दास	(सं0 2687255 एक्स अब जे सी-451823 डब्ल्यू)	01 अगस्त 2014
हवलदार जयपाल सिंह	(सं0 2685716 एक्स अब जे सी-451824 वाई)	22 सितम्बर 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 अगस्त 2014 से दी जायेगी		
हवलदार सुख देव	(सं0 2685795 एक्स अब जे सी-451825 एफ)	22 सितम्बर 2014
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 अगस्त 2014 से दी जायेगी		
हवलदार श्यामवीर सिंह तोमर	(सं0 2685280 एक्स अब जे सी-451826 के)	02 दिसम्बर 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 अगस्त 2014 से दी जायेगी		
हवलदार परमजीत सिंह	(सं0 2685485 एम अब जे सी-451827 एम)	01 दिसम्बर 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 अगस्त 2014 से दी जायेगी		
हवलदार किशन सिंह	(सं0 2685263 एक्स अब जे सी-451828 पी)	13 सितम्बर 2014
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जायेगी		
हवलदार प्रेम सिंह	(सं0 2686601 डब्ल्यू अब जे सी-451829 एक्स)	05 सितम्बर 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जायेगी		

हवलदार जीत मोहिन्दर सिंह	(सं० 2686800 के अब जे सी-451830 एम)	05 सितम्बर 2014
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जायेगी		
हवलदार बन्सी लाल, एस एम	(सं० 2685553 पी अब जे सी-451831 पी)	12 सितम्बर 2014
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जायेगी		
हवलदार हरेन्द्र सिंह	(सं० 2685859 एक्स अब जे सी-451832 एक्स)	22 सितम्बर 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जायेगी		
हवलदार शुभ करन	(सं० 2686128 डब्ल्यू अब जे सी-451833 ए)	22 सितम्बर 2014
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जायेगी		
हवलदार यशपाल सिंह	(सं० 2685582 के अब जे सी-451834 एच)	08 सितम्बर 2014
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जायेगी		
हवलदार रविन्दर कुमार शर्मा	(सं० 2685834 एल अब जे सी-451835 एल)	20 दिसम्बर 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 सितम्बर 2014 से दी जायेगी		
हवलदार विनय कुमार सिंह	(सं० 2687774 ए अब जे सी-451836 एन)	01 दिसम्बर 2014
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 सितम्बर 2014 से दी जायेगी		
हवलदार इन्दराज सिंह	(सं० 2685587 एच अब जे सी-451837 डब्ल्यू)	02 दिसम्बर 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 सितम्बर 2014 से दी जायेगी		
हवलदार नेक राम	(सं० 2685404 एफ अब जे सी-451838 वाई)	16 दिसम्बर 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 सितम्बर 2014 से दी जायेगी		
हवलदार मोहम्मद हुसैन	(सं० 2684871 एम अब जे सी-451839 एफ)	28 नवम्बर 2014
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी		
हवलदार बिशमवीर सिंह	(सं० 2686076 एल अब जे सी-451840 डब्ल्यू)	16 दिसम्बर 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी		
हवलदार करनी सिंह	(सं० 2685534 के अब जे सी-451841 वाई)	28 नवम्बर 2014
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी		
हवलदार बिजेन्द्र सिंह गुर्जर	(सं० 2685179 एक्स अब जे सी-451842 एफ)	15 नवम्बर 2014
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी		
हवलदार सदिप कुमार	(सं० 2685837 वाई अब जे सी-451843 के)	02 दिसम्बर 2014
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी		
हवलदार रमेश कुमार	(सं० 2685464 डब्ल्यू अब जे सी-451844 एम)	20 जनवरी 2014
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी		
हवलदार दिनेश कुमार	(सं० 2685614 एफ अब जे सी-451845 पी)	04 जनवरी 2015
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी		

हवलदार चैन सिंह राठोर	(सं० 2685843 एम अब जे सी-451846 एक्स)	30 दिसम्बर 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी		
हवलदार सतेन्द्र कुमार	(सं० 2686682 एफ अब जे सी-451847 ए)	01 दिसम्बर 2014
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जायेगी		
हवलदार महबूब खान	(सं० 2684725 एम अब जे सी-451848 एच)	15 दिसम्बर 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जायेगी		
हवलदार लाल चंद गुर्जर	(सं० 2686452 एन अब जे सी-451849 एल)	05 दिसम्बर 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जायेगी		

(नायब सूबेदार लिपिक एस० डी० के रैंक में)

हवलदार लिपिक एस० डी० सुरेश एम	(सं० 2686753 एक्स अब जे सी-451850 ए॥)	01 सितम्बर 2014
हवलदार लिपिक एस० डी० लखमी चंद	(सं० 2686843 वाई अब जे सी-451851 एच)	01 नवम्बर 2014
हवलदार लिपिक एस० डी० बलबीर	(सं० 2686922 एन अब जे सी-451852 एल)	02 दिसम्बर 2014
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 से दी जायेगी		

(नायब सूबेदार जी० डी० के रैंक में)

हवलदार सुरजीत सिंह	(सं० 2686115 वाई अब जे सी-451714 के)	13 जून 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जायेगी ।		
हवलदार रतन सिंह	(सं० 2686014 एल अब जे सी-451715 एम)	04 जून 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2014 से दी जायेगी		
हवलदार खुदा बक्स	(सं० 2686446 ए अब जे सी-451716 पी)	15 जुलाई 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2014 से दी जायेगी		
हवलदार ठाकुर सुरेन्द्र सिंह	(सं० 2688924 एक्स अब जे सी-451717 एक्स)	25 जुलाई 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 अप्रैल 2014 से दी जायेगी		
हवलदार महेश कुमार	(सं० 2685933 एन अब जे सी-451718 ए)	01 मई 2014*
हवलदार बलजीत सिंह	(सं० 2685132 एम अब जे सी-451719 एच)	07 मई 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जायेगी		
हवलदार बचन सिंह	(सं० 2685014 वाई अब जे सी-451720 एक्स)	08 मई 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जायेगी		
हवलदार सुलतान सिंह	(सं० 2685024 एच अब जे सी-451721 ए)	19 मई 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जायेगी		
हवलदार भैरव राम	(सं० 2685771 एन अब जे सी-451722 एच)	16 मई 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जायेगी ।		
हवलदार सुमेर चन्द	(सं० 2685588 एल अब जे सी-451723 एल)	21 मई 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जायेगी		

हवलदार श्री प्रकाश	(सं0 2684974 एल अब जे सी-451724 एन)	15 मई 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जायेगी		
हवलदार जितेन्द्र कुमार	(सं0 2685111 डब्ल्यू अब जे सी-451725 डब्ल्यू)	08 मई 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जायेगी		
हवलदार सतेन्द्र सिंह	(सं0 2685772 डब्ल्यू अब जे सी-451726 वाई)	27 मई 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जायेगी		
हवलदार किरण कुमार शर्मा	(सं0 2685906 के अब जे सी-451727 एफ)	28 मई 2014*
* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जायेगी		
हलदार बजरंग सिंह शेखावत	(सं0 2685930 ए अब जे सी-451728 के)	28 मई 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जायेगी		
हवलदार सुरेन्द्र सिंह मानावा	(सं0 2685091 एन अब जे सी-451729 एम)	28 मई 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जायेगी		
हवलदार नरेश कुमार	(सं0 2686182 के अब जे सी-451730 एफ)	12 मई 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जायेगी		
हवलदार रामबीर सिंह	(सं0 2685460 ए अब जे सी-451731 के)	17 मई 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जायेगी		
हवलदार अमर सिंह राना	(सं0 2685981 एन अब जे सी-451732 एम)	30 मई 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जायेगी		
हवलदार कँवर पाल सिंह	(सं0 2685385 एफ अब जे सी-451733 पी)	07 मई 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जायेगी		
हवलदार राज कुमार चौधरी	(सं0 2685222 एन अब जे सी-451734 एक्स)	20 मई 2014
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जायेगी		
हवलदार निर्भय सिंह वर्मा	(सं0 2683832 एफ अब जे सी-451735 ए)	01 मई 2014
हवलदार वेद प्रकाश	(सं0 2685414 एल अब जे सी-451736 एच)	19 मई 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जायेगी		
हवलदार पवन कुमार	(सं0 2685874 एम अब जे सी-451737 एल)	09 मई 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जायेगी		
हवलदार जबर सिंह भाटी	(सं0 2685343 पी अब जे सी-451738 एन)	08 मई 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जायेगी		
हवलदार मान सिंह	(सं0 2685812 एम अब जे सी-451739 डब्ल्यू)	04 जून 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जायेगी		

हवलदार विरेन्द्र सिंह	(सं० 2685093 वाई अब जे सी-451740 एल)	09 मई 2014
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जायेगी		
हवलदार देश राज	(सं० 2684892 एच अब जे सी-451741 एन)	06 जून 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जायेगी		
हवलदार राम बहादुर सिंह	(सं० 2686707 एच अब जे सी-451742 डब्ल्यू)	13 जून 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जायेगी		
हवलदार विनोद कुमार	(सं० 2685572 ए अब जे सी-451743 वाई)	24 मई 2014
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जायेगी		
हवलदार रनवीर सिंह	(सं० 2685351 एन अब जे सी-451744 एफ)	06 मई 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जायेगी		
हवलदार सलीम खान कयम खानी	(सं० 2687783 एफ अब जे सी-451745 के)	13 जून 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जायेगी		
हवलदार रिशब कुमार मीना	(सं० 2685862 एक्स अब जे सी-451746 एम)	01 मई 2014
हवलदार रनबीर सिंह	(सं० 2686151 के अब जे सी-451747 पी)	15 मई 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जायेगी		
हवलदार ज्ञान सिंह	(सं० 2686338 डब्ल्यू अब जे सी-451748 एक्स)	07 मई 2014
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जायेगी		
हवलदार दीपक कुमार	(सं० 2686570 एफ अब जे सी-451749 ए)	01 जुलाई 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जायेगी		
हवलदार मदन सिंह कंवर	(सं० 2686121 एम अब जे सी-451750 पी)	20 मई 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जायेगी		
हवलदार जसवन्त सिंह	(सं० 2686319 एल अब जे सी-451751 एक्स)	13 जून 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जायेगी		
हवलदार हिदायत अली खान	(सं० 2685629 के अब जे सी-451752 ए)	07 जुलाई 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 मई 2014 से दी जायेगी		
हवलदार राम कुमार मीणा	(सं० 2685528 डब्ल्यू अब जे सी-451753 एच)	01 जुलाई 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 मई 2014 से दी जायेगी		
हवलदार विनय कुमार	(सं० 2694477 पी अब जे सी-451754 एल)	30 जून 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 मई 2014 से दी जायेगी		
हवलदार अजीत सिंह	(सं० 2685936 एफ अब जे सी-451755 एन)	23 जून 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जायेगी		

हवलदार नन्दु सिंह शेखावत	(सं0 2685687 एन अब जे सी-451756 डब्ल्यू)	10 जून 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जायेगी		
हवलदार हसन खान	(सं0 2684598 एच अब जे सी-451757 वाई)	23 जून 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जायेगी		
हवलदार गोपाल सिंह शेखावत	(सं0 2686012 ए अब जे सी-451758 एफ)	09 जून 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जायेगी		
हवलदार समदर सिंह	(सं0 2686055 पी अब जे सी-451759 के)	13 जून 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जायेगी		
हवलदार मानू राम सिनवर	(सं0 2685788 एफ अब जे सी-451760वाई)	01 जून 2014*
हवलदार राज कुमार	(सं0 2686383 एच अब जे सी-451761 एफ)	02 जून 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जायेगी		
हवलदार सुलतान खान	(सं0 2685035 पी अब जे सी-451762 के)	23 जून 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जायेगी		
हवलदार राम अवतार सिंह मीणा	(सं0 2684946 वाई अब जे सी-451763 एम)	12 जून 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जायेगी		
हवलदार हरी सिंह	(सं0 2686529 एल अब जे सी-451764 पी)	24 जून 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जायेगी		
हवलदार परमा राम रेवार	(सं0 2686536 एफ अब जे सी-451765 एक्स)	24 जून 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जायेगी		
हवलदार हरि सिंह पटयाल	(सं0 2683978 पी अब जे सी-451766 ए)	08 जुलाई 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जायेगी		
हवलदार शिव लाल	(सं0 2686015 एन अब जे सी-451767 एच)	01 जून 2014*
हवलदार उमा नन्द	(सं0 2684756 एम अब जे सी-451768 एल)	01 जून 2014*
हवलदार हरि राम सिंह	(सं0 2685395 एल अब जे सी-451769 एन)	01 जून 2014*
हवलदार पाल किशन पाल गोवर्धन	(सं0 2688809 एक्स अब जे सी-451770 एच)	02 जून 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जायेगी		
हवलदार मनजीत सिंह	(सं0 2684967 पी अब जे सी-451771 एल)	01 जून 2014*
हवलदार द्वारिका प्रसाद	(सं0 2685189 एफ अब जे सी-451772 एन)	13 जून 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जायेगी		
हवलदार श्री राम सिंह	(सं0 2687302 के अब जे सी-451773 डब्ल्यू)	20 जुलाई 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जायेगी		

हवलदार संजय कुमार सिंह	(सं0 2686870 एच अब जे सी-451774 वाई)	04 जून 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जायेगी		
हवलदार सुभाष चन्द्र	(सं0 2688387 एक्स अब जे सी-451775 एफ)	04 जून 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जायेगी		
हवलदार रविन्दर सिंह	(सं0 2685207 वाई अब जे सी-451776 के)	01 जून 2014*
हवलदार प्रमोद कुमार	(सं0 2686190 एच अब जे सी-451777 एम)	04 जून 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जायेगी		
हवलदार गिरधारी लाल ठाकुर	(सं0 2685287 एफ अब जे सी-451778 पी)	01 जून 2014*
हवलदार सतविन्दर सिंह	(सं0 2686566 वाई अब जे सी-451779 एक्स)	20 जुलाई 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जायेगी		
हवलदार महमूद खान	(सं0 2684276 एच अब जे सी-451780 एम)	30 जून 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 जून 2014 से दी जायेगी		
हवलदार श्री गोपाल सिंह	(सं0 2685106 एल अब जे सी-451781 पी)	12 सितम्बर 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 जून 2014 से दी जायेगी		
हवलदार रमेश चन्द	(सं0 2684813 एच अब जे सी-451782 एक्स)	10 सितम्बर 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी		
हवलदार सतेन्द्र कुमार	(सं0 2686195 एफ अब जे सी-451783 ए)	05 अगस्त 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी		
हवलदार मान सिंह	(सं0 2685454 एम अब जे सी-451784 एच)	09 जुलाई 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी		
हवलदार अजय पाल सिंह	(सं0 2685510 ए अब जे सी-451785 एल)	16 जुलाई 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी		
हवलदार अमीन अली	(सं0 2683714 एन अब जे सी-451786 एन)	04 सितम्बर 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी		
हवलदार मूल चन्द	(सं0 2685415 एन अब जे सी-451787 डब्ल्यू)	23 जुलाई 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी		
हवलदार सतेन्द्र सिंह तोमर	(सं0 2685421 एफ अब जे सी-451788 वाई)	09 जुलाई 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी		
हवलदार मनोज कुमार	(सं0 2686575 ए अब जे सी-451789 एफ)	01 जुलाई 2014*
हवलदार चन्द्र प्रकाश	(सं0 2686617 एफ अब जे सी-451790 डब्ल्यू)	01 जुलाई 2014*

हवलदार शिव करन राम	(सं0 2687021 एन अब जे सी-451791 वाई)	25 अगस्त 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी		
हवलदार विजय कुमार	(सं0 2686593 एच अब जे सी-451792 एफ)	10 सितम्बर 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी		
हवलदार नारायण सिंह पनवर	(सं0 2685176 के अब जे सी-451793 के)	25 अगस्त 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी		
हवलदार विजय कुमार	(सं0 2684764 एल अब जे सी-451794 एम)	07 जुलाई 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी		
हवलदार शेर सिंह	(सं0 2686346 पी अब जे सी-451795 पी)	01 जुलाई 2014*
हवलदार गोपाल सिंह	(सं0 2685366 डब्ल्यू अब जे सी-451796 एक्स)	08 सितम्बर 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी		
हवलदार क्रिशन सिंह	(सं0 2685400 एल अब जे सी-451797 ए)	09 जुलाई 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी		
हवलदार माल सिंह	(सं0 2688960 एच अब जे सी-451798 एच)	08 सितम्बर 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी		
हवलदार सुरिन्दर कुमार	(सं0 2686572 एम अब जे सी-451799 एल)	23 जुलाई 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी		

नायब सूबेदार लिपिक एस0 डी0 के रैंक में

हवलदार लिपिक एस0 डी0 विजय कुमार शर्मा	(सं0 2685940 के अब जे सी-451800 पी॥)	01 जुलाई 2014
हवलदार लिपिक एस0 डी0 गुन्ड मुकुन्द बाबूराव	(सं0 1486708 एल अब जे सी-451801एक्स)	01 जुलाई 2014
हवलदार लिपिक एस0 डी0 लेख राज	(सं0 2685333 एल अब जे सी-451802 ए)	01 जुलाई 2014
हवलदार लिपिक एस0 डी0 नन्दा राम	(सं0 2685431 एल अब जे सी-451803 एच)	15 जुलाई 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी		
हवलदार लिपिक एस0 डी0 लाल चन्द	(सं0 2685531 डब्ल्यू अब जे सी-451804 एल)	01 जुलाई 2014
हवलदार लिपिक एस0 डी0 पान्डे कुन्दन आलोक	(सं0 2686241 एल अब जे सी-451805 एन)	09 जुलाई 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी		
हवलदार लिपिक एस0 डी0 धर्मेन्द्र पुनिया	(सं0 2686509 एक्स अब जे सी-451806 डब्ल्यू)	01 जुलाई 2014
हवलदार लिपिक एस0 डी0 रमेश चन्द शर्मा	(सं0 2686694 डब्ल्यू अब जे सी-451807 वाई)	01 अगस्त 2014

सिख रेजिमेन्ट

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार दर्शन सिंह	(जे सी 500421एल)	30 मार्च 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार जसपाल सिंह	(जे सी 500407वाइ)	20 मई 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार गुरमीत सिंह	(जे सी 500537एफ)	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार सलविन्दर सिंह	(जे सी 500504डब्ल्यू)	01 जून 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2015 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार सुखबीर सिंह	(जे सी 500667के)	12 मई 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 अप्रैल 2015 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार सतनाम सिंह	(जे सी 500540एफ)	30 मई 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2015 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार सतनाम सिंह	(जे सी 500562ए)	01 मई 2015
नायब सूबेदार भूपिन्दर सिंह	(जे सी 500709एल)	19 मई 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2015 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार जसविन्दर सिंह	(जे सी 500732वाइ)	12 मई 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2015 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार परविन्दर सिंह	(जे सी 500269एच)	03 जून 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2015 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार बलबीर सिंह	(जे सी 500499डब्ल्यू)	01 जून 2015

जाट रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार	कृष्ण सिंह	(सं. 3186971 के अब जेसी-491344 एक्स)	10 जुलाई 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2015 से दी जायेगी)			
हवलदार	जितेन्द्र सिंह तोमर	(सं. 3188967 ए अब जेसी-491345 ए)	02 जुलाई 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2015 से दी जायेगी)			
हवलदार	अशोक कुमार	(सं. 3186277 एक्स अब जेसी-491346 एच)	15 जुलाई 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 जून 2015 से दी जायेगी)			
हवलदार	सुरेन्द्र कुमार	(सं. 3187345 एम अब जेसी-491347 एल)	01 जुलाई 2015
हवलदार लिपिक	पंचमतीया हितेश कुमार हरि लाल	(सं. 3189290 एम अब जेसी-491348 एन)	01 अगस्त 2015

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

रिक्लुट (धर्म शिक्षक)	राजू प्रसाद शर्मा	(सं. 491189 एफ अब जेसी-491189 एफ)	07 फरवरी 2015
-----------------------	-------------------	-----------------------------------	---------------

वी एन रविन्द्रन
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 246, दिनांक 22 सितम्बर 2015—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं:—

नियमित सेना

क्वचित कोर

नायब रिसालदार के रैंक में

दफादार/ क्लर्क	बहादुर सिंह	(सं० 15470066एन अब जेसी-246963पी)	01 मई 2015
दफादार	हेमन्ता कुमार दास	(सं० 15469484डब्ल्यू अब जेसी-246927के)	*09 अप्रैल 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2015 से दी जाती है)			
दफादार	गुरिन्दर सिंह	(सं० 15468621एक्स अब जेसी-246962एम)	01 मई 2015
दफादार	के वेलु	(सं० 15465942के अब जेसी-246979ए)	*05 मई 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2015 से दी जाती है)			
दफादार	महेन्द्र प्रताप सिंह	(सं० 15466846एफ अब जेसी-247000पी)	*24 अप्रैल 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जाती है)			
दफादार	अखिलेश कुमार	(सं० 15469481एच अब जेसी-246926एफ)	*02 मार्च 2015
***(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जाती है)			
दफादार	ईशा रहेमान	(सं० 15462968एन अब जेसी-246930के)	*06 फरवरी 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 से दी जाती है)			
दफादार	गजेन्द्र सिंह	(सं० 15461852एल अब जेसी-246946पी)	01 अप्रैल 2015
दफादार	राम किशोर ठाकुर	(सं० 15462837एच अब जेसी-246968एन)	*01 मई 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जाती है)			
दफादार	समशेर सिंह	(सं० 15462938डब्ल्यू अब जेसी-246969डब्ल्यू)	01 मई 2015
दफादार	परगत सिंह	(सं० 15466982एक्स अब जेसी-246981एक्स)	*13 मई 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2015 से दी जाती है)			
दफादार	रबिन्द्र चन्द्र रमा	(सं० 15465405वाई अब जेसी-246984एल)	*01 अप्रैल 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 फरवरी 2015 से दी जाती है)			
दफादार	मनजीत सिंह	(सं० 15464568ए अब जेसी-246987वाई)	01 मई 2015
दफादार	नागरमल	(सं० 15468516एफ अब जेसी-246991एफ)	01 मई 2015
दफादार	कविन्द्र	(सं० 15467862एल अब जेसी-246992के)	*02 मई 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2015 से दी जाती है)			
दफादार	राजपाल सिंह	(सं० 15464378एन अब जेसी-246995एक्स)	01 मई 2015
दफादार	मुख्त्यार सिंह	(सं० 15464906एम अब जेसी-246996ए)	01 मई 2015
दफादार	निजामुद्दीन	(सं० 15466481एक्स अब जेसी-246997एच)	01 मई 2015
दफादार	भुपिन्दर सिंह	(सं० 15470960डब्ल्यू अब जेसी-247004एल)	*11 मई 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2015 से दी जाती है)			

दफादार	विकाश कुमार भारती	(सं० 15469605एम अब जेसी-246932पी)	01 अप्रैल 2015
दफादार	नरेश कुमार	(सं० 15463166डब्ल्यू अब जेसी-246936एल)	01 अप्रैल 2015
दफादार	दलबीर	(सं० 15498927पी अब जेसी-246953एल)	*01 जून 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2015 से दी जाती है)			
दफादार	सुरेश कुमार	(सं० 15464401डब्ल्यू अब जेसी-246961के)	01 मई 2015
दफादार	बयेंत सिंह	(सं० 15467936पी अब जेसी-246982ए)	01 मई 2015
दफादार	निबास परिडा	(सं० 15464883डब्ल्यू अब जेसी-247001एक्स)	*23 मई 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 मई 2015 से दी जाती है)			
दफादार	सुरिन्दर कुमार	(सं० 15466777डब्ल्यू अब जेसी-247005एन)	*05 जून 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2015 से दी जाती है)			
दफादार	नानक सिंह	(सं० 15466779एफ अब जेसी-247007वाई)	01 जून 2015
दफादार	सुखविन्दर सिंह	(सं० 15463378एफ अब जेसी-247008एफ)	01 जून 2015
दफादार	नबिन चन्द्र किरन	(सं० 15462845एफ अब जेसी-247009के)	*12 मई 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2015 से दी जाती है)			
दफादार	रमेश कुमार	(सं० 15462449एल अब जेसी-247010वाई)	01 जून 2015
दफादार	विशाल कुमार	(सं० 15466349एक्स अब जेसी-247011एफ)	01 जून 2015
दफादार	बलबीर सिंह	(सं० 15465060एच अब जेसी-247012के)	01 जून 2015
दफादार	रमेश कुमार	(सं० 15466032एच अब जेसी-247013एम)	*26 मई 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 अप्रैल 2015 से दी जाती है)			
दफादार	मोनीकांतन एस	(सं० 15464780एक्स अब जेसी-247018एल)	*23 मई 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2015 से दी जाती है)			
दफादार	सुरेश कुमार रायवार	(सं० 15466849पी अब जेसी-247020एच)	*26 मई 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2015 से दी जाती है)			
दफादार	जसवंत सिंह	(सं० 15464201ए अब जेसी-247021एल)	*02 जून 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2015 से दी जाती है)			
दफादार	रनधीर सिंह	(सं० 15467403एम अब जेसी-246986डब्ल्यू)	*25 मार्च 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जाती है)			
दफादार	लांडगे रंगनाथ सुदाम	(सं० 15467071एन अब जेसी-247006डब्ल्यू)	*23 मई 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2015 से दी जाती है)			
दफादार	इंदरपाल सिंह पनवर	(सं० 15463765डब्ल्यू अब जेसी-247014पी)	*23 मई 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 फरवरी 2015 से दी जाती है)			
दफादार	राम अवतार कासानिया	(सं० 15466707एक्स अब जेसी-246980पी)	*13 जून 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2015 से दी जाती है)			

दफादार	कवी राज	(सं० 15464458एल अब जेसी-247017एच)	01 जून 2015
दफादार	चंदन मैती	(सं० 15464759पी अब जेसी-247023डब्ल्यू)	*11 जून 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2015 से दी जाती है)			
दफादार	रवी ओरेंन	(सं० 15465069एक्स अब जेसी-247024वाय)	*08 जून 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2015 से दी जाती है)			
दफादार/ क्लर्क	विनय कुमार	(सं० 15462907डब्ल्यू अब जेसी-245852एल)	01 अगस्त 2012
दफादार/ एसकेटी	वी मुरलीधरन	(सं० 1098800एच अब जेसी-245854डब्ल्यू)	01 अगस्त 2012
दफादार/ एसकेटी	शेरदीन	(सं० 1578542पी अब जेसी-246015एल)	01 दिसम्बर 2012
दफादार/ एसकेटी	विनोद कुमार	(सं० 1089991एफ अब जेसी-246123पी)	01 फरवरी 2013
दफादार/ एसकेटी	पांडीथुराई वी	(सं० 1098802एन अब जेसी-246126एच)	01 फरवरी 2013
दफादार/ एसकेटी	गट राजु वामन	(सं० 1089905एल अब जेसी-246129डब्ल्यू)	01 फरवरी 2013
दफादार/ एसकेटी	सुनील कुमार	(सं० 1098805एफ अब जेसी-246130एल)	01 फरवरी 2013
दफादार/ एसकेटी	फुल कुमार	(सं० 1098955एक्स अब जेसी-246132डब्ल्यू)	01 फरवरी 2013
दफादार/ एसकेटी	कांबले नरेश बुधा	(सं० 1099083एम अब जेसी-246133वाई)	01 फरवरी 2013
दफादार/ एसकेटी	तजुदीन अहमद	(सं० 1579265एफ अब जेसी-246128एन)	01 फरवरी 2013
दफादार	श्री किशना राय	(सं० 1089964एक्स अब जेसी-246588पी)	*20 अक्टूबर 2010
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)			
दफादार	विजय प्रताप सिंह	(सं० 15464698एच अब जेसी-246595एल)	01 जून 2014
नायब रिसालदार के रैंक में			
भूतपूर्व दफादार	अनिल कुमार	(सं० 1577765ए अब जेसी-246971एन)	30 नवम्बर 2012
स्थायी रिसालदार के रैंक में			
नायब रिसालदार	घन श्याम सिंह	(जेसी 246124एक्स)	01 अप्रैल 2014
नायब रिसालदार	नरायन सिंह	(जेसी 245194के)	28 अप्रैल 2014
नायब रिसालदार	यशबीर सिंह	(जेसी 243986एल)	01 जुलाई 2014
नायब रिसालदार	सुरेश कुमार	(जेसी 244321एफ)	*01 अगस्त 2014
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 जुलाई 2014 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	हनुमान सिंह	(जेसी 244724एफ)	01 अगस्त 2014
नायब रिसालदार	महेबुब के	(जेसी 245520एफ)	*26 दिसम्बर 2014
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 अगस्त 2014 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	सिकंदर सिंह	(जेसी 245000डब्ल्यू)	25 अगस्त 2014
नायब रिसालदार	मोहिन्दर सिंह	(जेस 245211वाई)	*05 नवम्बर 2014
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	राजेन्द्र प्रसाद	(जेसी 245228एम)	*06 नवम्बर 2014
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जाती है)			

नायब रिसालदार	चंद्रकान्त जगनात	(जेसी 245382एल)	*24 फरवरी 2015
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	कोमल सिंह तोमर	(जेसी 245418वाई)	*14 नवम्बर 2014
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	सत्य प्रकाश	(जेसी 244912एच)	*28 फरवरी 2015
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 नवम्बर 2014 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	युधवीर सिंह	(जेसी 243997एक्स)	01 दिसम्बर 2014
नायब रिसालदार	राजेन्द्र सिंह	(जेसी 244468एक्स)	*05 जनवरी 2015
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	महेन्द्र प्रसाद सिंह	(जेसी 244683एच)	*21 फरवरी 2015
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	लछी राम	(जेसी 244885के)	01 दिसम्बर 2014
नायब रिसालदार	जनक राज	(जेसी 244907एक्स)	*20 दिसम्बर 2014
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	अमरनाथ सिंह	(जेसी 245106एच)	01 दिसम्बर 2014
नायब रिसालदार	पवन जाखड़	(जेसी 245365एल)	01 दिसम्बर 2014
नायब रिसालदार	संजय साही	(जेसी 245419एफ)	01 दिसम्बर 2014
नायब रिसालदार	जितेन्द्र सिंह	(जेसी 245463एल)	01 दिसम्बर 2014
नायब रिसालदार	नरिन्दर कुमार	(जेसी 245559एन)	*20 अप्रैल 2015
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 दिसम्बर 2014 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	एस रामा मुर्ती	(जेसी 243975वाई)	01 जनवरी 2015
नायब रिसालदार	मोहिन्दर सिंह	(जेसी 243976एफ)	01 जनवरी 2015
नायब रिसालदार	अनिल कुमार तिवारी	(जेसी 244123डब्ल्यू)	01 जनवरी 2015
नायब रिसालदार	अर्धी वेनु गोपाल राव	(जेसी 244124वाई)	01 जनवरी 2015
नायब रिसालदार	रौशन सिंह	(जेसी 244743एम)	*05 जनवरी 2015
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	भुपेन्द्र सिंह	(जेसी 244789पी)	*13 फरवरी 2015
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	भुपिन्दर सिंह	(जेसी 244793एक्स)	*06 जनवरी 2015
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	सुरेन्द्र प्रसाद कुश्वाह	(जेसी 244864एन)	01 जनवरी 2015

नायब रिसालदार	विलास पाटील	(जेसी 244865डब्ल्यू)	01 जनवरी 2015
नायब रिसालदार	कमलेश बानखेडे	(जेसी 244867एफ)	01 जनवरी 2015
नायब रिसालदार	राखा हरी पंडित	(जेसी 244878एन)	*05 जनवरी 2015
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	तेज सिंह	(जेसी 244913एल)	*17 मार्च 2015
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	हरीमुख सिंह	(जेसी 244986एक्स)	*21 फरवरी 2015
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	आजाद सिंह चौहान	(जेसी 245040एक्स)	*07 जनवरी 2015
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	कीसतुरा राम चौधरी	(जेसी 245058एन)	01 जनवरी 2015
नायब रिसालदार	महेन्द्र सिंह कुशवाह	(जेसी 245061एन)	01 जनवरी 2015
नायब रिसालदार	श्रवन कुमार दूत	(जेसी 245120पी)	01 जनवरी 2015
नायब रिसालदार	सतबीर सिंह	(जेसी 245121एक्स)	01 जनवरी 2015
नायब रिसालदार	रवेन्द्र सिंह	(जेसी 245475ए)	*16 जनवरी 2015
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	रेवत सिंह	(जेसी 245799एल)	*03 जनवरी 2015
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	प्रसन्ता कुमार सिंह	(जेसी 245818एल)	*03 जनवरी 2015
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	केवल क्रिशन	(जेसी 245035एम)	*29 अप्रैल 2015
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 जनवरी 2015 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	मुंगडे भीमराव हनमंत	(जेसी 244166एल)	*02 मार्च 2015
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	शिव ब्यास शुक्ला	(जेसी 244195ए)	01 फरवरी 2015
नायब रिसालदार	नरेन्द्र जीत	(जेसी 244938एक्स)	*11 फरवरी 2015
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	बस्ती राम यादव	(जेसी 245129के)	01 फरवरी 2015
नायब रिसालदार	सतविन्दर सिंह	(जेसी 245179पी)	01 फरवरी 2015
नायब रिसालदार	राजेश एस	(जेसी 245351एल)	01 फरवरी 2015

नायब रिसालदार	विजय कुमार	(जेसी 245353डब्ल्यू)	*03 फरवरी 2015
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	राजु रमन	(जेसी 245366एन)	*04 फरवरी 2015
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	रामग्यान सिंह प्रजापत	(जेसी 246031एच)	01 फरवरी 2015
नायब रिसालदार	विरेन्द्र कुमार	(जेसी 246040के)	01 फरवरी 2015
नायब रिसालदार	धर्मेन्द्र सिंह	(जेसी 245177के)	*17 फरवरी 2015
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 फरवरी 2015 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	भगवंत सिंह	(जेसी 243977के)	*02 मार्च 2015
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	द्ववरापु रेड्डी आर एन राव	(जेसी 244167एन)	*02 मार्च 2015
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	लायजु जी	(जेसी 244828एच)	*02 मार्च 2015
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	राजिन्दर कुमार	(जेसी 244895एन)	01 मार्च 2015
नायब रिसालदार	राज कुमार	(जेसी 244977डब्ल्यू)	01 मार्च 2015
नायब रिसालदार	मुकेश कुमार मिश्रा	(जेसी 245057एल)	01 मार्च 2015
नायब रिसालदार	एस बाबु	(जेसी 245089एन)	01 मार्च 2015
नायब रिसालदार	मोहम्मद तारीख अनवर	(जेसी 245134पी)	01 मार्च 2015
नायब रिसालदार	बीरपाल सिंह	(जेसी 245168एच)	*11 मार्च 2015
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	हरजिन्दर पाल सिंह	(जेसी 245242वाई)	01 मार्च 2015
नायब रिसालदार	दिनेश	(जेसी 245322डब्ल्यू)	01 मार्च 2015
नायब रिसालदार	गोविंद सिंह	(जेसी 245447एन)	01 मार्च 2015
नायब रिसालदार	मनोजन वी वी	(जेसी 246018वाई)	*19 मार्च 2015
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	दर्शन सिंह	(जेसी 246032एल)	*23 मार्च 2015
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	रनबीर सिंह	(जेसी 243978एम)	*04 अप्रैल 2015
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2015 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	मुरुगननंदम एस	(जेसी 244233एल)	*04 अप्रैल 2015
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2015 से दी जाती है)			

नायब रिसालदार	पवन कुमार	(जेसी 244485एक्स)	*05 मई 2015
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2015 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	सुभाष चन्द्र	(जेसी 244536ए)	*04 अप्रैल 2015
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2015 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	लखविन्दर सिंह	(जेसी 244547एम)	*13 अप्रैल 2015
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2015 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	सत्यवीर सिंह	(जेसी 244999पी)	01 अप्रैल 2015
नायब रिसालदार	कुलवंत सिंह	(जेसी 245006एक्स)	*13 अप्रैल 2015
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2015 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	रफियुल अलम विश्वास	(जेसी 245090एच)	01 अप्रैल 2015
नायब रिसालदार	तेज सिंह	(जेसी 245111एन)	*11 अप्रैल 2015
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2015 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	अरविन्द कुमार	(जेसी 245283एच)	*25 मई 2015
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2015 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	किरण पोदार	(जेसी 245311के)	01 अप्रैल 2015
नायब रिसालदार	हरीश चन्द यादव	(जेसी 245691एन)	01 अप्रैल 2015
नायब रिसालदार	मनोज कुमार बी	(जेसी 245692डब्ल्यू)	01 अप्रैल 2015
नायब रिसालदार	डी ओ सुनील कुमार	(जेसी 245853एन)	01 अप्रैल 2015
नायब रिसालदार	शिव नरायन यादव	(जेसी 245908एम)	01 अप्रैल 2015
नायब रिसालदार	कंचेरला सुब्बा राव	(जेसी 246388वाई)	*06 अप्रैल 2015
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2015 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	अरविंद शुक्ला	(जेसी 245245एम)	*23 मई 2015
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 अप्रैल 2015 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	अजीत कुमार पी आर	(जेसी 245280पी)	*23 मई 2015
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 अप्रैल 2015 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	मंगत राम	(जेसी 245104एक्स)	*11 मई 2015
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 अप्रैल 2015 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	राजेश सिंह तोमर	(जेसी 244584ए)	01 मई 2015
नायब रिसालदार	सुदर्शन कुमार	(जेसी 244816एन)	01 मई 2015
नायब रिसालदार	विरेन्द्र सिंह	(जेसी 245103पी)	01 मई 2015
नायब रिसालदार	राम देव यादव	(जेसी 245147एम)	*12 मई 2015
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2015 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	पर्बत सिंह बाला	(जेसी 245886वाई)	*05 मई 2015
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2015 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	राज करन सिंह	(जेसी 245909पी)	01 मई 2015
नायब रिसालदार	अशोक कुमार बघेल	(जेसी 245911एम)	01 मई 2015

नायब रिसालदार	बी ए गोविंद राव	(जेसी 245968एफ)	01 मई 2015
नायब रिसालदार	एस विजया राज	(जेसी 246273एल)	*26 मई 2015
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2015 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	बनारसी दास	(जेसी 245277पी)	01 जून 2015
नायब रिसालदार	राजेन्द्र कुमार	(जेसी 245306वाई)	01 जून 2015

राजीव जौहरी
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 247, दिनांक 22 सितम्बर 2015—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को सेवानिवृत्त होने पर अपना रैंक बनाये रखने और वर्दी पहनने की अनुमति प्रदान करते हैं : —

प्रादेशिक सेना सेवानिवृत्त

लै0 कर्नल पंकज कुमार	टीए-42313	(इन्जीनियर टीए)	31 मार्च 2015 (अप0)
लै0 कर्नल ए एन पानण्डेय	(टीए-42138)	(इन्फैन्ट्री)	30 जून 2015

भारत भूषण जोशी
अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE
New Delhi, the 10th October 2015
(ARMY BRANCH)

No. 240, dated 17th September 2015—The President is pleased to make the following appointment under AI 15/79 as amended:-

REGULAR ARMY
ARMY DENTAL CORPS
(SHORT SERVICE COMMISSION)

To be Captain (On Probation)
(Antedate of Commission)

DS-12546M Capt (Ms) Neha Prashar - 06-03-2014

with seniority for pay and promotion from 06-09-2010 (includes 42 months antedate, 36 months antedate for acquiring MDS degree from Army College of Dental Science, Secunderabad and 06 months for holding appointment as a Lecturer in Army College of Dental Science, Secunderabad from 16 Jan 2009 to 20 Jan 2010, which will not count for gratuity).

Ministry of Defence Gazette Notification published on the Gazette of India dated 09 Aug 2014, pertaining to the Officer is hereby cancelled.

DS-12486M Capt Dhruv Sharma - 09-02-2013

with seniority for pay and promotion from 09-02-2010 (36 months antedate for acquiring MDS degree from Dental Science Bareilly, Uttar Pradesh, which will not count for gratuity).

Ministry of Defence Gazette Notification published on the Gazette of India dated 22 Feb 2014, pertaining to the Officer is hereby cancelled.

DS-12498X Capt Shetty Gaurav - 19-02-2013

with seniority for pay and promotion from 19-02-2010 (36 months antedate for acquiring MDS degree from AB Shetty Memorial Institute of Dental Sciences, Deralakatte, Mangalore, which will not count for gratuity).

Ministry of Defence Gazette Notification published on the Gazette of India dated 22 Feb 2014, pertaining to the Officer is hereby cancelled.

HS SANDHU
Brig
DDGDS (P)

ARMY BRANCH

No. 241, dated 17th September 2015—The President is pleased to make the following appointment :—

TERRITORIAL ARMY

To be Lieutenant

Gopal Singh

TA-42790

(Engr TA)

13 Sep 2010

B B JOSHI
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 242, dated 18th September 2015—The President is to make the following promotion (PC) under AI 37/78 as amended :—

REGULAR ARMY
ARMY DENTAL CORPS
(PERMANENT COMMISSION)

Maj Gen to be Lt Gen

Sr No	Pers No	Rank	Name	Date of Promotion
(a)	DR-10358M	Maj Gen	TK Bandyopadhyay	23-03-2015 (with notional seniority 23-03-2015 without effect on pay & allowances)

Promotion From Maj to Lt Col

Ser No	Per No	Rank	Name	Date of Promotion
(a)	DR-10594N	Maj	Avinash Kumar	20-02-14
(b)	DR-10604M	Maj	Ashok Kumar	03-10-14

Ser No	Per No	Rank	Name	Date of Promotion
(a)	DR-10553K	Maj	Atul Bali	08-04-2014

The President is pleased to make the following promotion under AI 15/79 as amended :—

REGULAR ARMY
ARMY DENTAL CORPS
SHORT SERVICE COMMISSION

Promotion From Maj to Lt Col

Ser No	Per No	Rank & Name	Date of Promotion
(a)	DS-12110F	Maj (Ms) Anita Raj	07-02-2015

Capt to be Major

S. No	Pers No	Rank	Name	Date of promotion
(a)	DS-12463F	Capt	Sunil Kumar Goyal	09-04-2013

HS SANDHU
Brig
DDGDS (P)

ARMY BRANCH

No. 243, dated 18th September 2015—The President is pleased to make the following promotion : -

TERRITORIAL ARMY
TERRITORIAL COMMISSION

To be Lt Col

Maj VR Subramanian	TA-42455	(Engineer TA)	23 Mar 2015
--------------------	----------	---------------	-------------

To be Maj

Capt Kanwar Preet Singh Sandhu	TA-42672	(Infantry)	11 Dec 2014
Capt Ashwani Bhuria	TA-42670	(Infantry)	04 Nov 2014
Capt Ramchandra Singh Nagarkoti	TA-42675	(Infantry)	27 Nov 2014
Capt Vikram Singh	TA-42676	(Infantry)	14 Nov 2014
Capt Rohit Rajendra Gadkary	TA-42608	(Infantry)	02 Jun 2014

To be Capt

Lt Gopal Singh	TA-42790	(Engineer TA)	13 Sep 14
----------------	----------	---------------	-----------

B B JOSHI
Under Secy

63.	Havildar	Ram Gopal	6386671P	Now	JC668524X	01 Aug 2012
64.	Havildar	Ashok Kumar	6386682F	Now	JC668525A	01 Aug 2012
65.	Havildar	Lakkhi Ram Verma	6386683K	Now	JC668526H	01 Aug 2012
66.	Havildar	Baldev Singh Barsal	6386897A	Now	JC668527L	01 Aug 2012
67.	Havildar	Bharat Singh Kulhari	6386908F	Now	JC668528N	01 Aug 2012
68.	Havildar	Ajit Singh	6386621K	Now	JC668529W	01 Aug 2012
69.	Havildar	Kanwar Pal	6386626H	Now	JC668530L	01 Aug 2012
70.	Havildar	Biswajit Santra	6386943K	Now	JC668531N	01 Aug 2012
71.	Havildar	Shah Nawaj	6387069F	Now	JC668532W	01 Aug 2012
72.	Havildar	Debendra Kumar Jena	6388452M	Now	JC668533Y	01 Aug 2012
73.	Havildar	Monoranjan Das	6388292X	Now	JC668544L	22 Jul 2012*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2012 without effect on pay and allces)						
74.	Havildar	Santosh Kumar Saini	6386905N	Now	JC668545N	07 Aug 2012*
75.	Havildar	Hari Pada Biswas	6386939F	Now	JC668546W	06 Aug 2012*
76.	Havildar	Gouranga Charan Suttar	6386941Y	Now	JC668547Y	01 Aug 2012
77.	Havildar	Surendra Singh	6387091M	Now	JC668548F	01 Aug 2012
78.	Havildar	Dhan Singh	6387103W	Now	JC668549K	01 Aug 2012
79.	Havildar	Edala Srinivasu	6387149Y	Now	JC668550Y	01 Aug 2012
80.	Havildar	Naresh Chandra Giri	6388309A	Now	JC668551F	01 Aug 2012
81.	Havildar	Harish Chandra Kandpal	6382056A	Now	JC667986X	01 Feb 2011
82.	Havildar	Nabab Khan	6386669X	Now	JC668554P	01 Aug 2012
83.	Havildar	Biswanath Dey	6386698M	Now	JC668555X	01 Aug 2012
84.	Havildar	Mahavir Prasad Nager	6386927M	Now	JC668556A	06 Aug 2012*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2012 without effect on pay and allces)						
85.	Havildar	Ranjit Singh	6388695X	Now	JC668557H	01 Aug 2012
86.	Havildar	Tapas Kumar Mondal	6387282F	Now	JC668560H	01 Sep 2012
87.	Havildar	Rakesh Kumar	6390656X	Now	JC668567M	22 Aug 2012*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2012 without effect on pay and allces)						
88.	Havildar	Daula Ram	6386664Y	Now	JC668568P	16 Aug 2012*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2012 without effect on pay and allces)						
89.	Havildar	Arun Kumar Mishra	6386150F	Now	JC668569X	01 Sep 2012
90.	Havildar	Dipankar Kumar Paul	6387280W	Now	JC668570M	01 Sep 2012
91.	Havildar	Ashok Kumar Ghosh	6387292L	Now	JC668571P	01 Sep 2012
92.	Havildar	Uma Shankar Singh	6387293N	Now	JC668572X	01 Sep 2012
93.	Havildar	Kundan Kumar	6387295Y	Now	JC668573A	01 Sep 2012
94.	Havildar	Tapan Sarkar	6387302K	Now	JC668574H	01 Sep 2012
95.	Havildar	Arun Kumar Sharma	6387311L	Now	JC668575L	01 Sep 2012

96.	Havildar	Dinesh Chandra Yadav	13898172K	Now	JC668576N	01 Sep 2012
97.	Havildar	Atma Nand Tiwari	13898329Y	Now	JC668577W	01 Sep 2012
98.	Havildar	Kriplani Raju Nebhan Das	6387374N	Now	JC668578Y	01 Sep 2012
99.	Havildar	Jathar Ramnath Ghamaji	6387435A	Now	JC668579F	01 Sep 2012
100.	Havildar	Rabindra Nath Gazar	6388701A	Now	JC668580W	01 Sep 2012

To be Naib Subedar Clk (Sd)

1.	Havildar	Pearul Islam	6388714X	Now	JC668581Y	01 Sep 2012
2.	Havildar	Raghunathan N V	6388728X	Now	JC668582F	01 Sep 2012
3.	Havildar	Sarwan Kumar Sharma	6387491Y	Now	JC668583K	01 Sep 2012
4.	Havildar	Jai Prakash Singh	6387507Y	Now	JC668584M	01 Sep 2012
5.	Havildar	Santhosh Kumar P	6388741F	Now	JC668585P	01 Sep 2012
6.	Havildar	Harihar Maurya	6387433P	Now	JC668588H	01 Sep 2012
7.	Havildar	Ram Singh Sekhawat	6386198P	Now	JC668347H	11 Apr 2012*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2012 without effect on pay and allces)

8.	Havildar	Hari Om Sharma	6386686X	Now	JC668590A	15 Sep 2012*
----	----------	----------------	----------	-----	-----------	--------------

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Aug 2012 without effect on pay and allces)

9.	Havildar	Bedre Sanjay Onkar	6388551F	Now	JC668591H	01 Sep 2012
10.	Havildar	Thakre Nilkantha Chintaman	6388531F	Now	JC668592L	14 Sep 2012*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2012 without effect on pay and allces)

11.	Havildar	Bhusari Jayant Prabhakar Rao	6388542N	Now	JC668600Y	17 Sep 2012*
-----	----------	------------------------------	----------	-----	-----------	--------------

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Aug 2012 without effect on pay and allces)

12.	Havildar	Shahul Hameed VE	6387209H	Now	JC668601F	26 Sep 2012*
13.	Havildar	Vanjari Bhagwandas Yeshavantrao	6388578M	Now	JC668602K	14 Sep 2012*
14.	Havildar	Sobha Nath	6388775P	Now	JC668603M	01 Oct 2012
15.	Havildar	Vrindawan Mishra	6388647X	Now	JC668605X	14 Sep 2012*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2012 without effect on pay and allces)

16.	Havildar	Raju TK	6388690Y	Now	JC668622X	23 Oct 2012*
17.	Havildar	Rohitashw Kumar Gadwal	6388746A	Now	JC668623A	20 Oct 2012*
18.	Havildar	Ram Shiromani Dubey	6388772F	Now	JC668624H	18 Oct 2012*
19.	Havildar	Satyendra Kumar Seni	6388783N	Now	JC668625L	19 Oct 2012*
20.	Havildar	Parbhu Dayal	6386912K	Now	JC668626N	19 Oct 2012*
21.	Havildar	Sri Hari Rao Vanamali	6387154K	Now	JC668627W	23 Oct 2012*
22.	Havildar	Ananta Kumar Gain	6388390X	Now	JC668628Y	23 Oct 2012*
23.	Havildar	Sunil Kumar Srivastva	6388717L	Now	JC668629F	22 Oct 2012*
24.	Havildar	Manoj Kumar Dixit	6387532X	Now	JC668630W	23 Oct 2012*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2012 without effect on pay and allces)

25.	Havildar	Tribhuwan Pandey	13896087H	Now	JC668632F	06 Nov 2012*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Oct 2012 without effect on pay and allces)						
26.	Havildar	Bijaya Kumar Dash	6387873H	Now	JC668641H	06 Nov 2012*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2012 without effect on pay and allces)						
27.	Havildar	Mohd Pharuk Khan	6383654K	Now	JC668642L	07 Nov 2012*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Oct 2012 without effect on pay and allces)						
28.	Havildar	Chavan Pradip Ramchandra	6388580K	Now	JC668643N	08 Nov 2012*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2012 without effect on pay and allces)						
29.	Havildar	Brundaban Pradhan	6387774A	Now	JC668644W	07 Nov 2012*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2012 without effect on pay and allces)						
30.	Havildar	Devendra Kumar Sharma	6388779L	Now	JC668645Y	07 Nov 2012*
31.	Havildar	Karnail Singh	6388744P	Now	JC668646F	25 Oct 2012*
32.	Havildar	Basant Kumar Sahoo	6388796L	Now	JC668647K	19 Oct 2012*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2012 without effect on pay and allces)						
33.	Havildar	Udey Singh	6384200H	Now	JC668648M	07 Nov 2012*
34.	Havildar	Gopal Singh Bora	6384399P	Now	JC668649P	06 Nov 2012*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2012 without effect on pay and allces)						
35.	Havildar	Vinod Kumar Sahu	6388204W	Now	JC668650K	07 Nov 2012*
36.	Havildar	Shiv Ram	6386453W	Now	JC668653X	16 Nov 2012*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2012 without effect on pay and allces)						
37.	Havildar	Binod Sharangi	6387314Y	Now	JC668654A	07 Nov 2012*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Oct 2012 without effect on pay and allces)						
38.	Havildar	Rajesh Sharma	6388820W	Now	JC668655H	07 Nov 2012*
39.	Havildar	Sheo Prasad Maurya	6387858N	Now	JC668656L	06 Nov 2012*
40.	Havildar	Ramesh Chand	6387917P	Now	JC668657N	08 Nov 2012*
41.	Havildar	Jagannath Panda	6388450F	Now	JC668658W	08 Nov 2012*
42.	Havildar	Ram Kishan	6388672W	Now	JC668659Y	08 Nov 2012*
43.	Havildar	Bhanu Prasad Dwivedi	6388677P	Now	JC668660N	15 Nov 2012*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2012 without effect on pay and allces)						
44.	Havildar	Krishan Kumar	6387663H	Now	JC668661W	06 Nov 2012*
45.	Havildar	Rabindra Kumar Nayak	6388698L	Now	JC668662Y	16 Nov 2012*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Oct 2012 without effect on pay and allces)						
46.	Havildar	Dev Dulal Ghosh	6383981P	Now	JC668663F	07 Nov 2012*
47.	Havildar	Harvir Singh	6387852M	Now	JC668664K	07 Nov 2012*
48.	Havildar	Pramod Singh Yadav	6387881F	Now	JC668665M	06 Nov 2012*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2012 without effect on pay and allces)						
49.	Havildar	Arjun Singh	6387544M	Now	JC668667X	08 Nov 2012*

50.	Havildar	Ashok Kumar Sharma	6387883M	Now	JC668668A	06 Nov 2012*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2012 without effect on pay and allces)						
51.	Havildar	Rama Chandra Bhat	6387721F	Now	JC668669H	08 Nov 2012*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Oct 2012 without effect on pay and allces)						
52.	Havildar	Vinod Kumar	6386849A	Now	JC668670X	17 Nov 2012*
53.	Havildar	Pradipta Kumar Satapathy	6387829Y	Now	JC668671A	16 Nov 2012*
54.	Havildar	Sujan Singh	6387924L	Now	JC668672H	18 Nov 2012*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2012 without effect on pay and allces)						
55.	Havildar	Ravindra Singh	6388774M	Now	JC668673L	16 Nov 2012*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Oct 2012 without effect on pay and allces)						
56.	Havildar	P Chandra Sekhara Rao	6388864N	Now	JC668680F	22 Nov 2012*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2012 without effect on pay and allces)						
57.	Havildar	Santosh Kumar Behera	6388355P	Now	JC668681K	15 Nov 2012*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2012 without effect on pay and allces)						
58.	Havildar	Rajesh Kumar Walia	6387673M	Now	JC668682M	23 Nov 2012*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Oct 2012 without effect on pay and allces)						
59.	Havildar	Krupanidhi Sahu	6387875N	Now	JC668683P	10 Nov 2012*
60.	Havildar	Surender	6387908N	Now	JC668684X	20 Nov 2012*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2012 without effect on pay and allces)						
61.	Havildar	Kisalay Piri	6388879W	Now	JC668685A	01 Dec 2012
62.	Havildar	Mohan Yadav	6387985H	Now	JC668693Y	04 Dec 2012*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2012 without effect on pay and allces)						
63.	Havildar	Makade Vinod Dajiba	6388838M	Now	JC668694F	01 Dec 2012*
64.	Havildar	Lakshman Pattanaik	6388853F	Now	JC668695K	20 Nov 2012*
65.	Havildar	Sabu K Abraham	6387093X	Now	JC668696M	17 Nov 2012*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2012 without effect on pay and allces)						
66.	Havildar	Sukanta Chakraverty	6387751Y	Now	JC668697P	17 Nov 2012*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Oct 2012 without effect on pay and allces)						
67.	Havildar	Haldhar Chauhan	6388668N	Now	JC668698X	03 Dec 2012*
68.	Havildar	Digar Singh Kanyal	6387528P	Now	JC668699A	01 Dec 2012*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2012 without effect on pay and allces)						
69.	Havildar	Kesab Chandra Mondal	6387613X	Now	JC668700K	30 Nov 2012*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Oct 2012 without effect on pay and allces)						
70.	Havildar	Subhendu Biswas	13896353W	Now	JC668701M	30 Nov 2012*
71.	Havildar	Thorat Sanju Raja	6387888L	Now	JC668702P	26 Nov 2012*
72.	Havildar	Kadam Sunil Kashiram	6387891L	Now	JC668703X	30 Nov 2012*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2012 without effect on pay and allces)						

73.	Havildar	Kashmir Singh	6388867F	Now	JC668704A	01 Dec 2012
74.	Havildar	Jadhav Sambhaji Dattatraya	6388902Y	Now	JC668705H	01 Dec 2012
75.	Havildar	Pawar Anil Maruti	6388905M	Now	JC668706L	01 Dec 2012
76.	Havildar	Pawar Hanmant Dadaso	6388925A	Now	JC668707N	01 Dec 2012
77.	Havildar	Mani Ram Singh	6387977K	Now	JC668708W	01 Dec 2012
78.	Havildar	Gokul Chand Yadav	6388729A	Now	JC668715M	17 Dec 2012*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Oct 2012 without effect on pay and allces)						
79.	Havildar	Maheswara Giri	6388802N	Now	JC668716P	30 Nov 2012*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2012 without effect on pay and allces)						
80.	Havildar	Suresh Kumar Mishra	6387750W	Now	JC668717X	01 Dec 2012*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Oct 2012 without effect on pay and allces)						
81.	Havildar	Mankar Lahuraj Ankush	6388915W	Now	JC668718A	01 Dec 2012
82.	Havildar	Gavali Vijay Babu	6388923P	Now	JC668719H	01 Dec 2012
83.	Havildar	Nagendra Das	6387878F	Now	JC668720X	01 Dec 2012
84.	Havildar	Raghuvar	6387975Y	Now	JC668721A	01 Dec 2012
85.	Havildar	Hemant Kumar Chaudhari	6391526F	Now	JC668731K	03 Dec 2012*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Oct 2012 without effect on pay and allces)						
86.	Havildar	Rajesh Kumar	6388680P	Now	JC668732M	30 Nov 2012*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2012 without effect on pay and allces)						
87.	Havildar	Ganga Shay Sharma	6387855A	Now	JC668733P	10 Dec 2012*
88.	Havildar	Sharvan Ram	6386687A	Now	JC668734X	10 Dec 2012*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2012 without effect on pay and allces)						
89.	Havildar	Hari Singh	6388815L	Now	JC668769N	27 Dec 2012*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2012 without effect on pay and allces)						
90.	Havildar	Prakash Chand Gurjar	6387567N	Now	JC668770H	24 Dec 2012*
91.	Havildar	Abhaya Kumar Pathak	6387617N	Now	JC668771L	27 Dec 2012*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Oct 2012 without effect on pay and allces)						
92.	Havildar	Patil Rudra Gouda	6387862W	Now	JC668772N	28 Dec 2012*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2012 without effect on pay and allces)						
93.	Havildar	N Danda Pani Reddy	6388874X	Now	JC668773W	29 Dec 2012*
94.	Havildar	Ajay Kumar Mishra	6388894L	Now	JC668774Y	01 Jan 2013*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2012 without effect on pay and allces)						
95.	Havildar	Harjeet Singh	6387926W	Now	JC668802A	05 Jan 2013*
96.	Havildar	Krishna Sarkar	6388861A	Now	JC668803H	31 Dec 2012*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2012 without effect on pay and allces)						
97.	Havildar	Amrit Singh	6387662A	Now	JC668804L	09 Jan 2013*

98.	Havildar	Devendra Kumar Kushwah	6387217F	Now	JC668805N	09 Jan 2013*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 22 Dec 2012 without effect on pay and allces)						
99.	Havildar	Godse Balasaheb Sahebrao	6388353K	Now	JC668806W	09 Jan 2013*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2013 without effect on pay and allces)						

DEEPAK NARANG
Under Secretary

ARMY BRANCH

No. 245, dated 21st September 2015—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY (INFANTRY) THE MAHAR REGIMENT

To be Naib Subedar

HAV	RAVINDER SINGH	4567441K (Now JC-571308A)	15 Dec 2014
	(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 05 Aug 2014)		
HAV	TAYADE VIJAY PRABHAKAR	4564798P (Now JC-571309H)	20 Dec 2014
	(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 20 Sep 2014)		
HAV	UTTAM SINGH RANA	4567604M (Now JC-571310X)	28 Dec 2014
	(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2014)		
HAV	BHAGWAN SINGH	4561814W (Now JC-571311A)	06 Jan 2015
	(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 28 Oct 2014)		
HAV	DHARMENDER	4565970X (Now JC-571312H)	31 Jan 2015
	(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Nov 2014)		
HAV	DINESH KUMAR	4563735A (Now JC-571313L)	09 Feb 2015
	(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 09 Dec 2014)		
HAV	KADAM SANTOSH BHIKAJI	4566716A (Now JC-571314N)	07 Feb 2015
	(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 13 Dec 2014)		
HAV	SURINDER KUMAR	4564520N (Now JC-571315W)	16 Feb 2015
	(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 23 Dec 2014)		
HAV	NAWALE BABURAO SAHADEO RAO	4563891K (Now JC-571316Y)	17 Feb 2015*
HAV	KHILLARE SUDHIR SHAMRAO	4566913H (Now JC-571317F)	07 Feb 2015*
	* (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Jan 2015)		
HAV	HUKUM SINGH PARIHAR	4567627N (Now JC-571318K)	28 Feb 2015
	(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 06 Jan 2015)		
HAV	GAJBHIYE RAMBHAU MAHADEO	4563886Y (Now JC-571319M)	07 Mar 2015@
HAV	SHANKAR SINGH	4566553X (Now JC-571320F)	07 Mar 2015@
	@ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 22 Jan 2015)		
HAV	SAPATALE ROHIDAS SUKHDEO	4564028H (Now JC-571321K)	21 Mar 2015#
HAV	SHASHIN KUMAR SINGH	4564569K (Now JC-571322M)	24 Mar 2015#
	# (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Feb 2015)		

HAV	PRATAP CHANDRA BEHERA	4564486Y (Now JC-571323P)	19 Mar 2015
	(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 03 Feb 2015)		
HAV	JAGDISH SINGH	4564253X (Now JC-571324X)	10 Mar 2015
	(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 14 Feb 2015)		
HAV	MAHAVIR SINGH	4565939L (Now JC-571325A)	13 Mar 2015
	(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 15 Feb 2015)		
HAV	SATISH KUMAR	4563033F (Now JC-571326H)	01 Mar 2015%
HAV	DAVARE SUBHASH UDDHAV	4563788Y (Now JC-571327L)	19 Mar 2015%
HAV	MANE HARIBHAU SHANKAR	4564077L (Now JC-571328N)	21 Mar 2015%
HAV	NARINDER SINGH	4565351K (Now JC-571329W)	02 Mar 2015%
HAV	CH BRIJESH KUMAR DAS	4566999M (Now JC-571330L)	01 Mar 2015%
	% (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Mar 2015)		
HAV	BHARAT TUKARAM JADHAO	4563813M (Now JC-571331N)	06 Apr 2015
	(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 22 Mar 2015)		
HAV	KAMBLE ARUN MARUTI	4562530Y (Now JC-571332W)	13 Apr 2015
	(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 05 Apr 2015)		

THE GRENADIERS

To be Substantive Nb Sub

Hav Jagrup Singh Gurjar	(No 2684282W now JC-451855Y)	19 th Sep 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Jul 2014.		
Hav Iqbal Khan	(No 2686409M now JC-451856F)	14 th Oct 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Jul 2014.		
Hav Mohd Waheed	(No 2688687Y now JC-451857K)	24 th Oct 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Jul 2014.		
Hav Shaukat Ali	(No 2684315W now JC-451858M)	13 th Oct 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Jul 2014.		
Hav Gopal Lal Meena	(No 2686234P now JC-451859P)	01 st Jan 2015*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Jul 2014.		
Hav Mahender Singh	(No 2686175N now JC-451860K)	29 th Sep 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 05 th Jul 2014.		
Hav Pramod Kumar	(No 2686119P now JC-451861M)	29 th Sep 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 05 th Jul 2014.		
Hav Dharm Vir Singh	(No 2686111H now JC-451862P)	28 th Jan 2015*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 09 th Jul 2014.		
Hav Jai Singh	(No 2685236N now JC-451863X)	27 th Sep 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 15 th Jul 2014.		
Hav Mohd Rafique Ansari	(No 2684676P now JC-451864A)	22 nd Sep 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 16 th Jul 2014.		
Hav Bhanwer Singh Bhati	(No 2685408X now JC-451865H)	14 th Oct 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 27 th Jul 2014.		
Hav Ashish Kumar Singh	(No 2686160L now JC-451866L)	14 th Nov 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Aug 2014.		

Hav Kushal Pal Singh Panwar	(No 2685576W now JC-451867N)	10 th Oct 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Aug 2014.		
Hav Ramesh Kumar	(No 2686661L now JC-451868W)	03 rd Jan 2015*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Aug 2014.		
Hav Yogendra Singh	(No 2685403Y now JC-451869Y)	11 th Oct 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Aug 2014.		
Hav Tayab Khan	(No 2687987N now JC-451870N)	14 th Nov 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Aug 2014.		
Hav Abdul Hamed Khan	(No 2686749P now JC-451871W)	04 th Oct 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Aug 2014.		
Hav Hardutt Singh	(No 8033150N now JC-451872Y)	01 st Oct 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 06 th Aug 2014.		
Hav Om Parkash	(No 2686704P now JC-451873F)	03 rd Jan 2015*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 12 th Aug 2014.		
Hav Ajeet Singh	(No 2685955M now JC-451874K)	29 th Sep 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 22 nd Aug 2014.		
Hav Rajesh Kumar	(No 2686742L now JC-451875M)	08 th Jan 2015*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 27 th Aug 2014.		
Hav Rajendra Choudhary	(No 2686271H now JC-451876P)	01 st Oct 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Sep 2014.		
Hav Raju	(No 2685844P now JC-451877X)	27 th Sep 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Sep 2014.		
Hav Shahab Khan	(No 2689078F now JC-451878A)	15 th Dec 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Sep 2014.		
Hav Ram Hari	(No 2684842X now JC-451879H)	11 th Nov 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Sep 2014.		
Hav Brijpal Singh Chahar	(No 2687120W now JC-451880X)	05 th Oct 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Sep 2014.		
Hav Alladeen Khan	(No 2685166A now JC-451881A)	02 nd Jan 2015*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 06 th Sep 2014.		
Hav Harbhajan Singh	(No 2685513N now JC-451882H)	02 nd Nov 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 06 th Sep 2014.		
Hav Bhupinder Singh Thakur	(No 2685631F now JC-451883L)	03 rd Nov 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 06 th Sep 2014.		
Hav Sunil Kumar	(No 2686335H now JC-451884N)	30 th Dec 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 06 th Sep 2014.		
Hav Abdul Sttar	(No 2684660K now JC-451885W)	11 th Oct 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 07 th Sep 2014.		

Hav Chand Singh Shekhawat	(No 2686708L now JC-451886Y)	03 rd Jan 2015*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 13 th Sep 2014.		
Hav Vijayvir Singh	(No 2686110A now JC-451887F)	20 th Oct 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 15 th Sep 2014.		
Hav Raj Pal	(No 2686010P now JC-451888K)	21 st Jan 2015*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 27 th Sep 2014.		
Hav Sushil Singh	(No 2685989A now JC-451889M)	31 st Jan 2015*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Oct 2014.		
Hav Shankar Lal Meena	(No 2684973H now JC-451890F)	13 th Oct 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Oct 2014.		
Hav Mohal Lal Meena	(No 2686045L now JC-451891K)	04 th Mar 2015*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Oct 2014.		
Hav Bijay Shankar Singh	(No 2687310H now JC-451892M)	13 th Jan 2015*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Oct 2014.		
Hav Dharamveer	(No 2685867W now JC-451893P)	02 nd Feb 2015*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Oct 2014.		
Hav Chhatra Pal Singh	(No 2688003X now JC-451894X)	22 nd Jan 2015*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Oct 2014.		

To be Substantive Nb Sub Clk (SD)

Hav (Clk) (SD) Pradeep Singh Khatri	(No 2686955Y now JC-451895A)	01 st Dec 2014
Hav (Clk) (SD) Nem Singh	(No 2687071Y now JC-451896H)	01 st Jan 2015
Hav (Clk) (SD) Putta Raju K	(No 2687093X now JC-451897L)	01 st Jan 2015
Hav (Clk) (SD) Jamil Hassan	(No 2687122F now JC-451898N)	01 st Feb 2015
Hav (Clk) (SD) Goutam Das	(No 2687199K now JC-451899W)	01 st Feb 2015
Hav (Clk) (SD) Ramesh Kumar	(No 2686290N now JC-451900A)	01 st Feb 2015
Hav (Clk) (SD) Gangadhar Agasti	(No 2686901X now JC-451901H)	01 st Feb 2015
Hav (Clk) (SD) Vinod Kumar Sharma	(No 2687060M now JC-451902L)	01 st Feb 2015
Hav (Clk) (SD) Mukesh Kumar Sinha	(No 2686751M now JC-451903N)	01 st Feb 2015
Hav (Clk) (SD) Chachappen KC	(No 2687170F now JC-451904W)	01 st Mar 2015

To be Substantive Nb Sub

Hav Ajmer Singh	(No 2687266K now JC-451809K)	11 th Sep 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Jun 2014.		
Hav Puspendra Singh	(No 2686177Y now JC-451810Y)	15 th Dec 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 14 th Jul 2014.		
Hav Rajbeer Singh Bhadouria	(No 2685392X now JC-451811F)	27 th Dec 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 20 th Jul 2014.		

Hav Vaniya Haresh Bachu Bhai	(No 2689683P now JC-451812K)	14 th Dec 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 20 th Jul 2014.		
Hav Upendra Nath Singh	(No 2686159W now JC-451813M)	01 st Dec 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 21 st Jul 2014.		
Hav Ved Pal	(No 2686724H now JC-451814P)	01 st Sep 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 25 th Jul 2014.		
Hav Sabu Ram Beniwal	(No 2685797H now JC-451815X)	05 th Jan 2015*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 31 st Jul 2014.		
Hav Naresh Pal	(No 2685850H now JC-451816A)	05 th Sep 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Aug 2014.		
Hav Chetan Kathat	(No 2687889N now JC-451817H)	29 th Aug 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Aug 2014.		
Hav Asmal	(No 2684432F now JC-451818L)	12 th Sep 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Aug 2014.		
Hav Ram Raj Singh Bhadoria	(No 2685883N now JC-451819N)	01 st Aug 2014
Hav Gajendra Singh	(No 2686101Y now JC-451820H)	15 th Dec 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Aug 2014.		
Hav Prince Kumar	(No 2686967N now JC-451821L)	01 st Aug 2014
Hav Pawan Kumar	(No 2685330X now JC-451822N)	04 th Sep 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Aug 2014.		
Hav Durga Dass	(No 2687255X now JC-451823W)	01 st Aug 2014
Hav Jaipal Singh	(No 2685716X now JC-451824Y)	22 nd Sep 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 10 th Aug 2014.		
Hav Sukha Deo	(No 2685795X now JC-451825F)	22 nd Sep 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 24 th Aug 2014.		
Hav Shyamvir Singh Tomar	(No 2685280X now JC-451826K)	02 nd Dec 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 26 th Aug 2014.		
Hav Paramjit Singh	(No 2685485M now JC-451827M)	01 st Dec 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 29 th Aug 2014.		
Hav Kishan Singh	(No 2685263X now JC-451828P)	13 th Sep 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Sep 2014.		
Hav Prem Singh	(No 2686601W now JC-451829X)	05 th Sep 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Sep 2014.		
Hav Jeet Mohinder Singh	(No 2686800K now JC-451830M)	05 th Sep 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Sep 2014.		
Hav Bansi Lal, SM	(No 2685553P now JC-451831P)	12 th Sep 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Sep 2014.		

Hav Harendra Singh	(No 2685859X now JC-451832X)	22 nd Sep 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Sep 2014.		
Hav Shubha Karan	(No 2686128W now JC-451833A)	22 nd Sep 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Sep 2014.		
Hav Yashpal Singh	(No 2685582K now JC-451834H)	08 th Sep 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Sep 2014.		
Hav Ravinder Kumar Sharma	(No 2685834L now JC-451835L)	20 th Dec 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 06 th Sep 2014.		
Hav Vinay Kumar Singh	(No 2687774A now JC-451836N)	01 st Dec 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 09 th Sep 2014.		
Hav Indraj Singh	(No 2685587H now JC-451837W)	02 nd Dec 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 13 th Sep 2014.		
Hav Nek Ram	(No 2685404F now JC-451838Y)	16 th Dec 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 23 rd Sep 2014.		
Hav Mohd Hussain	(No 2684871M now JC-451839F)	28 th Nov 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Oct 2014.		
Hav Bishamver Singh	(No 2686076L now JC-451840W)	16 th Dec 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Oct 2014.		
Hav Karni Singh	(No 2685534K now JC-451841Y)	28 th Nov 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Oct 2014.		
Hav Bijendra Singh Gurjar	(No 2685179X now JC-451842F)	15 th Nov 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Oct 2014.		
Hav Sandip Kumar	(No 2685837Y now JC-451843K)	02 nd Dec 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Oct 2014.		
Hav Ramesh Kumar	(No 2685464W now JC-451844M)	20 th Jan 2015*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 20 th Oct 2014.		
Hav Dinesh Kumar	(No 2685614F now JC-451845P)	04 th Jan 2015*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 25 th Oct 2014.		
Hav Chain Singh Rathore	(No 2685843M now JC-451846X)	30 th Dec 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 29 th Oct 2014.		
Hav Satendra Kumar	(No 2686682F now JC-451847A)	01 st Dec 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Nov 2014.		
Hav Mahboob Khan	(No 2684725M now JC-451848H)	15 th Dec 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Nov 2014.		
Hav Lal Chand Gurjar	(No 2686452N now JC-451849L)	05 th Dec 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Nov 2014.		

To be Substantive Nb Sub Clk (SD)

Hav (Clk) (SD) Suresh M	(No 2686753X now JC-451850A)	01 st Sep 2014
Hav (Clk) (SD) Lakhmi Chand	(No 2686843Y now JC-451851H)	01 st Nov 2014
Hav (Clk) (SD) Balbir	(No 2686922N now JC-451852L)	02 nd Dec 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Dec 2014.		

To be Substantive Nb Sub

Hav Surjeet Singh	(No 2686115Y now JC-451714K)	13 th Jun 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Feb 2014.		
Hav Ratan Singh	(No 2686014L now JC-451715M)	04 th Jun 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Apr 2014.		
Hav Khuda Bux	(No 2686446A now JC-451716P)	15 th Jul 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Apr 2014.		
Hav Thakur Surendra Singh	(No 2688924X now JC-451717X)	25 th Jul 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 23 rd Apr 2014.		
Hav Mahesh Kumar	(No 2685933N now JC-451718A)	01 st May 2014
Hav Baljeet Singh	(No 2685132M now JC-451719H)	07 th May 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st May 2014.		
Hav Bachan Singh	(No 2685014Y now JC-451720X)	08 th May 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st May 2014.		
Hav Sultan Singh	(No 2685024H now JC-451721A)	19 th May 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st May 2014.		
Hav Bhanwara Ram	(No 2685771N now JC-451722H)	16 th May 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st May 2014.		
Hav Sumer Chand	(No 2685588L now JC-451723L)	21 st May 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st May 2014.		
Hav Shri Parkash	(No 2684974L now JC-451724N)	15 th May 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st May 2014.		
Hav Jitender Kumar	(No 2685111W now JC-451725W)	08 th May 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st May 2014.		
Hav Satendra Singh	(No 2685772W now JC-451726Y)	27 th May 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st May 2014.		
Hav Kiran Kumar Sharma	(No 2685906K now JC-451727F)	28 th May 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st May 2014.		
Hav Bajrang Singh Shekhawat	(No 2685930A now JC-451728K)	28 th May 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st May 2014.		
Hav Surendar Singh Mangawa	(No 2685091N now JC-451729M)	28 th May 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st May 2014.		

Hav Naresh Kumar	(No 2686182K now JC-451730F)	12 th May 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st May 2014.		
Hav Rambir Singh	(No 2685460A now JC-451731K)	17 th May 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st May 2014.		
Hav Amar Singh Rana	(No 2685981N now JC-451732M)	30 th May 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st May 2014.		
Hav Kanwar Pal Singh	(No 2685385F now JC-451733P)	07 th May 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st May 2014.		
Hav Raj Kumar Choudhary	(No 2685222N now JC-451734X)	20 th May 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st May 2014.		
Hav Nirbhy Singh Verma	(No 2683832F now JC-451735A)	01 st May 2014
Hav Ved Prakash	(No 2685414L now JC-451736H)	19 th May 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st May 2014.		
Hav Pawan Kumar	(No 2685874M now JC-451737L)	09 th May 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st May 2014.		
Hav Jabar Singh Bhati	(No 2685343P now JC-451738N)	08 th May 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st May 2014.		
Hav Man Singh	(No 2685812M now JC-451739W)	04 th Jun 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st May 2014.		
Hav Virendar Singh	(No 2685093Y now JC-451740L)	09 th May 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st May 2014.		
Hav Desh Raj	(No 2684892H now JC-451741N)	06 th Jun 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st May 2014.		
Hav Ram Bahadur Singh	(No 2686707H now JC-451742W)	13 th Jun 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st May 2014.		
Hav Vinod Kumar	(No 2685572A now JC-451743Y)	24 th May 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st May 2014.		
Hav Ranveer Singh	(No 2685351N now JC-451744F)	06 th May 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st May 2014.		
Hav Saleem Khan Kayam Khani	(No 2687783F now JC-451745K)	13 th Jun 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st May 2014.		
Hav Rishab Kumar Meena	(No 2685862X now JC-451746M)	01 st May 2014
Hav Ranbir Singh	(No 2686151K now JC-451747P)	15 th May 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st May 2014.		
Hav Gian Singh	(No 2686338W now JC-451748X)	07 th May 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st May 2014.		
Hav Deepak Kumar	(No 2686570F now JC-451749A)	01 st Jul 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st May 2014.		

Hav Madan Singh Kanwar	(No 2686121M now JC-451750P)	20 th May 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st May 2014.		
Hav Jaswant Singh	(No 2686319L now JC-451751X)	13 th Jun 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st May 2014.		
Hav Hidayat Ali Khan	(No 2685629K now JC-451752A)	07 Jul 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 06 th May 2014.		
Hav Ram Kumar Meena	(No 2685528W now JC-451753H)	01 Jul 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 18 th May 2014.		
Hav Vinay Kumar	(No 2694477P now JC-451754L)	30 th Jun 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 30 th May 2014.		
Hav Ajit Singh	(No 2685936F now JC-451755N)	23 rd Jun 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Jun 2014.		
Hav Nandu Singh Shekhawat	(No 2685687N now JC-451756W)	10 th Jun 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Jun 2014.		
Hav Hasan Khan	(No 2684598H now JC-451757Y)	23 rd Jun 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Jun 2014.		
Hav Gopal Singh Shekhawat	(No 2686012A now JC-451758F)	09 th Jun 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Jun 2014.		
Hav Samadar Singh	(No 2686055P now JC-451759K)	13 th Jun 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Jun 2014.		
Hav Mangu Ram Sinwar	(No 2685788F now JC-451760Y)	01 st Jun 2014
Hav Raj Kumar	(No 2686383H now JC-451761F)	02 nd Jun 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Jun 2014.		
Hav Sultan Khan	(No 2685035P now JC-451762K)	23 rd Jun 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Jun 2014.		
Hav Ram Avtar Singh Meena	(No 2684946Y now JC-451763M)	12 th Jun 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Jun 2014.		
Hav Hari Singh	(No 2686529L now JC-451764P)	24 th Jun 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Jun 2014.		
Hav Parma Ram Rewar	(No 2686536F now JC-451765X)	24 th Jun 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Jun 2014.		
Hav Hari Singh Patyal	(No 2683978P now JC-451766A)	08 th Jul 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Jun 2014.		
Hav Shiv Lal	(No 2686015N now JC-451767H)	01 st Jun 2014
Hav Uma Nand	(No 2684756M now JC-451768L)	01 st Jun 2014
Hav Hari Ram Singh	(No 2685395L now JC-451769N)	01 st Jun 2014
Hav Pal Krishan Pal Govardhan	(No 2688809X now JC-451770H)	02 nd Jun 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Jun 2014.		

Hav Manjeet Singh	(No 2684967P now JC-451771L)	01 st Jun 2014
Hav Dwarika Prasad	(No 2685189F now JC-451772N)	13 th Jun 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Jun 2014.		
Hav Shri Ram Singh	(No 2687302K now JC-451773W)	20 th Jul 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Jun 2014.		
Hav Sanjay Kumar Singh	(No 2686870H now JC-451774Y)	04 th Jun 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Jun 2014.		
Hav Subhash Chander	(No 2688387X now JC-451775F)	04 th Jun 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Jun 2014.		
Hav Ravinder Singh	(No 2685207Y now JC-451776K)	01 st Jun 2014*
Hav Pramod Kumar	(No 2686190H now JC-451777M)	04 th Jun 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Jun 2014.		
Hav Girdhari Lal Thakur	(No 2685287F now JC-451778P)	01 st Jun 2014
Hav Satwinder Singh	(No 2686566Y now JC-451779X)	20 th Jul 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Jun 2014.		
Hav Mahboob Khan	(No 2684276H now JC-451780M)	30 th Jun 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 05 th Jun 2014.		
Hav Sri Gopal Singh	(No 2685106L now JC-451781P)	12 th Sep 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 12 th Jun 2014.		
Hav Ramesh Chand	(No 2684813H now JC-451782X)	10 th Sep 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Jul 2014.		
Hav Satendra Kumar	(No 2686195F now JC-451783A)	05 th Aug 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Jul 2014.		
Hav Man Singh	(No 2685454M now JC-451784H)	09 th Jul 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Jul 2014.		
Hav Ajay Pal Singh	(No 2685510A now JC-451785L)	16 th Jul 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Jul 2014.		
Hav Amin Ali	(No 2683714N now JC-451786N)	04 th Sep 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Jul 2014.		
Hav Mool Chand	(No 2685415N now JC-451787W)	23 rd Jul 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Jul 2014.		
Hav Satendra Singh Tomar	(No 2685421F now JC-451788Y)	09 th Jul 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Jul 2014.		
Hav Manoj Kumar	(No 2686575A now JC-451789F)	01 st Jul 2014
Hav Chander Prakash	(No 2686617F now JC-451790W)	01 st Jul 2014
Hav Sheo Karan Ram	(No 2687021N now JC-451791Y)	25 th Aug 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Jul 2014.		

Hav Vijai Kumar	(No 2686593H now JC-451792F)	10 th Sep 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Jul 2014.		
Hav Narayan Singh Panwar	(No 2685176K now JC-451793K)	25 th Aug 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Jul 2014.		
Hav Vijay Kumar	(No 2684764L now JC-451794M)	07 th Jul 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Jul 2014.		
Hav Sher Singh	(No 2686346P now JC-451795P)	01 st Jul 2014*
Hav Gopal Singh	(No 2685366W now JC-451796X)	08 th Sep 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Jul 2014.		
Hav Krishan Singh	(No 2685400L now JC-451797A)	09 th Jul 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Jul 2014.		
Hav Mal Singh	(No 2688960H now JC-451798H)	08 th Sep 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Jul 2014.		
Hav Surinder Kumar	(No 2686572M now JC-451799L)	23 rd Jul 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Jul 2014.		

To be Substantive Nb Sub Clk (SD)

Hav (Clk) (SD) Vijay Kumar Sharma	(No 2685940K now JC-451800P)	01 st Jul 2014
Hav (Clk) (SD) Gund Mukund Babu Rao	(No 1486708L now JC-451801X)	01 st Jul 2014
Hav (Clk) (SD) Lekh Raj	(No 2685333L now JC-451802A)	01 st Jul 2014
Hav (Clk) (SD) Nanda Ram	(No 2685431L now JC-451803H)	15 th Jul 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Jul 2014.		
Hav (Clk) (SD) Lal Chand	(No 2685531W now JC-451804L)	01 st Jul 2014
Hav (Clk) (SD) Pandey Kundan Alok	(No 2686241L now JC-451805N)	09 th Jul 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Jul 2014.		
Hav (Clk) (SD) Dharmendra Punia	(No 2686509X now JC-451806W)	01 st Jul 2014
Hav (Clk) (SD) Ramesh Chand Sharma	(No 2686694W now JC-451807Y)	01 st Aug 2014

THE SIKH REGIMENT

To be Subedar (GD)

Nb Sub	Darshan Singh	JC-500421L	30 Mar 2014
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2014 without effect on pay and allowances			
Nb Sub	Jaspal Singh	JC-500407Y	20 May 2015
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2015 without effect on pay and allowances			
Nb Sub	Gurmeet Singh	JC-500537F	01 Apr 2015
Nb Sub	Salwinder Singh	JC-500504W	01 Jun 2015
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2015 without effect on pay and allowances			
Nb Sub	Sukhbir Singh	JC-500667K	12 May 2015
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 18 Apr 2015 without effect on pay and allowances			

Nb Sub	Satnam Singh	JC-500540F	30 May 2015
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 May 2015 without effect on pay and allowances			
Nb Sub	Satnam Singh	JC-500562A	01 May 2015
Nb Sub	Bhupinder Singh	JC-500709L	19 May 2015
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 May 2015 without effect on pay and allowances			
Nb Sub	Jaswinder Singh	JC-500732Y	12 May 2015
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 May 2015 without effect on pay and allowances			
Nb Sub	Parvinder Singh	JC-500269H	03 Jun 2015
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2015 without effect on pay and allowances			
Nb Sub	Balbir Singh	JC-500499W	01 Jun 2015

THE JAT REGIMENT

To be Nb Sub

Hav	Krishan Singh	(No 3186971K now JC-491344X)	10 th July 2015*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 June 2015 without effect on pay & allowances.			
Hav	Jitendra Singh Tomar	(No 3188967A now JC-491345A)	2 nd July 2015*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 June 2015 without effect on pay & allowances.			
Hav	Ashok Kumar	(No 3186277X now JC-491346H)	15 th July 2015*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 14 June 2015 without effect on pay & allowances.			
Hav	Surender Kumar	(No 3187345M now JC-491347L)	1 st July 2015
Hav Clk	Panchmatia Hitesh Kumar Hari Lal	(No 3189290M now JC-491348N)	1 st Aug 2015

To be Nb Sub (Religious Teacher)

Rect (RT)	Raju Prasad Sharma	(No 491189F now JC-491189F)	7 th Feb 2015
-----------	--------------------	-----------------------------	--------------------------

V N RAVEENDRAN
Under Secretary

ARMY BRANCH

No. 246, dated 22nd September 2015—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY
ARMOURED CORPS

(To be NBRIS)

DFR(CLKSD) BAHADUR SINGH	(No. 15470066N now JC246963P)	01 May 2015
DFR(GNR/OPR) HEMANTA KUMAR DAS	(No. 15469484W now JC246927K)	*09 Apr 2015
*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Apr 2015 without effect on pay and allowances)		
DFR(DVR/GNR) GURINDER SINGH	(No. 15468621X now JC246962M)	01 May 2015
DFR(DVR/OPR) K VELU	(No. 15465942K now JC246979A)	*05 May 2015
*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Apr 2015 without effect on pay and allowances)		
DFR(GNR/DVR) MAHENDRA PRATAP SINGH	(No. 15466846F now JC247000P)	*24 Apr 2015
*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Mar 2015 without effect on pay and allowances)		

DFR(GNR/OPR) AKHILESH KUMAR	(No. 15469481H now JC246926F)	*02 Mar 2015
*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Mar 2015 without effect on pay and allowances)		
DFR(DVR/GNR) ISHA RAHAMAN	(No. 15462968N now JC246930K)	*06 Feb 2015
*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Dec 2014 without effect on pay and allowances)		
DFR(DVR/OPR) GAJENDER SINGH	(No. 15461852L now JC246946P)	01 Apr 2015
DFR(OPR/GNR) RAM KISHOR THAKUR	(No. 15462837H now JC246968N)	*01 May 2015
*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Feb 2015 without effect on pay and allowances)		
DFR(DVR/OPR) SAMSHER SINGH	(No. 15462938W now JC246969W)	01 May 2015
DFR(DVR/OPR) PARGAT SINGH	(No. 15466982X now JC246981X)	*13 May 2015
*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 May 2015 without effect on pay and allowances)		
DFR(DVR/OPR) RABINDRA CHANDRA RABHA	(No. 15465405Y now JC246984L)	*01 Apr 2015
*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 04 Feb 2015 without effect on pay and allowances)		
DFR(DVR/OPR) MANJIT SINGH	(No. 15464568A now JC246987Y)	01 May 2015
DFR(DVR/GNR) NAGARMAL	(No. 15468516F now JC246991F)	01 May 2015
DFR(DVR/GNR) KAVINDRA	(No. 15467862L now JC246992K)	*02 May 2015
*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 May 2015 without effect on pay and allowances)		
DFR(GNR/OPR) RAJPAL SINGH	(No. 15464378N now JC246995X)	01 May 2015
DFR(GNR/OPR) MUKHTIAR SINGH	(No. 15464906M now JC246996A)	01 May 2015
DFR(OPR/GNR) NIZAM-U-DIN	(No. 15466481X now JC246997H)	01 May 2015
DFR(OPR/GNR) BHUPINDER SINGH	(No. 15470960W now JC247004L)	*11 May 2015
*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 May 2015 without effect on pay and allowances)		
DFR(CLKSD) VIKASH KUMAR BHARTI	(No. 15469605M now JC246932P)	01 Apr 2015
DFR(GNR/OPR) NARESH KUMAR	(No. 15463166W now JC246936L)	01 Apr 2015
DFR(DVR/GNR) DALBIR	(No. 15498927P now JC246953L)	*01 Jun 2015
*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Apr 2015 without effect on pay and allowances)		
DFR(DVR/GNR) SURESH KUMAR	(No. 15464401W now JC246961K)	01 May 2015
DFR(GNR/OPR) BEANT SINGH	(No. 15467936P now JC246982A)	01 May 2015
DFR(DVR/GNR) NIBAS PARIDA	(No. 15464883W now JC247001X)	*23 May 2015
*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 05 May 2015 without effect on pay and allowances)		
DFR(DVR/GNR) SURINDER KUMAR	(No. 15466777W now JC247005N)	* 05 Jun 2015
*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Jun 2015 without effect on pay and allowances)		
DFR(OPR/GNR) NANAK SINGH	(No. 15466779F now JC247007Y)	01 Jun 2015
DFR(OPR/GNR) SUKHWINDER SINGH	(No. 15463378F now JC247008F)	01 Jun 2015
DFR(DVR/GNR) NABIN CHANDRA KIRAN	(No. 15462845F now JC247009K)	*12 May 2015
*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 May 2015 without effect on pay and allowances)		
DFR(DVR/GNR) RAMESH KUMAR	(No. 15462449L now JC247010Y)	01 Jun 2015
DFR(DVR/GNR) VISHAL KUMAR	(No. 15466349X now JC247011F)	01 Jun 2015
DFR(DVR/GNR) BALBIR SINGH	(No. 15465060H now JC247012K)	01 Jun 2015
DFR(GNR/DVR) RAMESH KUMAR	(No. 15466032H now JC247013M)	*26 May 2015
*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 21 Apr 2015 without effect on pay and allowances)		

DFR(DVR/OPR) MONIKANTAN S	(No. 15464780X now JC247018L)	*23 May 2015
*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Apr 2015 without effect on pay and allowances)		
DFR(OPR/GNR) SURESH KUMAR RAIWAR	(No. 15466849P now JC247020H)	*26 May 2015
*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Apr 2015 without effect on pay and allowances)		
DFR(OPR/GNR) JASWANT SINGH	(No. 15464201A now JC247021L)	*02 Jun 2015
*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Apr 2015 without effect on pay and allowances)		
DFR(OPR/GNR) RANDHEER SINGH *	(No. 15467403M now JC246986W)	*25 Mar 2015
*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Mar 2015 without effect on pay and allowances)		
DFR(SKT) LANDAGE RANGNATH SUDAM	(No. 15467071N now JC247006W)	*23 May 2015
*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 May 2015 without effect on pay and allowances)		
DFR(GNR/OPR) INDERPAL SINGH PANWAR	(No. 15463765W now JC247014P)	*23 May 2015
*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 13 Feb 2015 without effect on pay and allowances)		
DFR(DVR/OPR) RAM AVTAR KASNNIYA	(No. 15466707X now JC246980P)	*13 Jun 2015
*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Apr 2015 without effect on pay and allowances)		
DFR(DVR/OPR) KAVI RAJ	(No. 15464458L now JC247017H)	01 Jun 2015
DFR(DVR/OPR) CHANDAN MAITI	(No. 15464759P now JC247023W)	*11 Jun 2015
*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Jun 2015 without effect on pay and allowances)		
DFR(DVR/GNR) RAVI ORAON	(No. 15465069X now JC247024Y)	*08 Jun 2015
*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Jun 2015 without effect on pay and allowances)		
DFR(CLKSD) VINAY KUMAR	(No. 15462907W now JC245852L)	01 AUG 2012
DFR(SKT) V MURALEE DHARAN	(No. 1098800H now JC245854W)	01 AUG 2012
DFR(SKT) SHER DIN	(No. 1578542P now JC246015L)	01 DEC 2012
DFR(SKT) VINOD KUMAR	(No. 1089991F now JC246123P)	01 FEB 2013
DFR(SKT) PANDITHURAI V	(No. 1098802N now JC246126H)	01 FEB 2013
DFR(SKT) GAT RAJU WAMAN	(No. 1089905L now JC246129W)	01 FEB 2013
DFR(SKT) SUNIL KUMAR	(No. 1098805F now JC246130L)	01 FEB 2013
DFR(SKT) PHOOL KUMAR	(No. 1098955X now JC246132W)	01 FEB 2013
DFR(SKT) KAMBLE NARESH BUDHA	(No. 1099083M now JC246133Y)	01 FEB 2013
DFR(SKT) TAZUDDIN AHMED	(No. 1579265F now JC246128N)	01 FEB 2013
DFR(OPR/AFV) SHRI KRISHNA RAI	(No. 1089964X now JC246588P)	*20 OCT 2010
*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)		
DFR(OPR/AFV) VIJAY PRATAP SINGH	(No. 15464698H now JC246595L)	01 Jun 2014
To be Naib Risaldar		
Ex Dfr Anil Kumar	(No. 1577765A Now JC246971N)	30 Nov 2012
To be Substantive RIS		
NAIB RISALDAR GHAN SHYAM SINGH	(JC246124X)	01 Apr 2014
NAIB RISALDAR NARAYAN SINGH	(JC245194K)	28 Apr 2014
NAIB RISALDAR YESHBIR SINGH	(JC243986L)	01 Jul 2014
NAIB RISALDAR SURESH KUMAR	(JC244321F)	*01 Aug 2014
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 09 Jul 2014 without effect on pay and allowances)		

NAIB RISALDAR HANUMAN SINGH	(JC244724F)	01 Aug 2014
NAIB RISALDAR MEHBOOB K	(JC245520F)	*26 Dec 2014
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 10 Aug 2014 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR SIKANDER SINGH	(JC245000W)	25 Aug 2014
NAIB RISALDAR MOHINDER SINGH	(JC245211Y)	*05 Nov 2014
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Nov 2014 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR RAJENDRA PRASAD	(JC245228M)	*06 Nov 2014
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Nov 2014 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR CHANDRAKANTH JAGANAT	(JC245382L)	*24 Feb 2015
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Nov 2014 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR KOMAL SINGH TOMAR	(JC245418Y)	*14 Nov 2014
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Nov 2014 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR SATYA PRAKASH	(JC244912H)	*28 Feb 2015
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 14 Nov 2014 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR YUDHVIR SINGH	(JC243997X)	01 Dec 2014
NAIB RISALDAR RAJENDRA SINGH	(JC244468X)	*05 Jan 2015
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Dec 2014 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR MAHENDRA PRASAD SINGH	(JC244683H)	*21 Feb 2015
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Dec 2014 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR LACHHI RAM	(JC244885K)	01 Dec 2014
NAIB RISALDAR JANAK RAJ	(JC244907X)	*20 Dec 2014
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Dec 2014 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR AMARNATH SINGH	(JC245106H)	01 Dec 2014
NAIB RISALDAR PAVAN JAKHAR	(JC245365L)	01 Dec 2014
NAIB RISALDAR SANJAY SAHI	(JC245419F)	01 Dec 2014
NAIB RISALDAR JITENDERA SINGH	(JC245463L)	01 Dec 2014
NAIB RISALDAR NARINDER KUMAR	(JC245559N)	*20 Apr 2015
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 26 Dec 2014 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR S RAMA MOORTHY	(JC243975Y)	01 Jan 2015
NAIB RISALDAR MOHINDER SINGH	(JC243976F)	01 Jan 2015
NAIB RISALDAR ANIL KUMAR TIWARI	(JC244123W)	01 Jan 2015
NAIB RISALDAR ARDHI VENU GOPAL RAO	(JC244124Y)	01 Jan 2015
NAIB RISALDAR ROSHAN SINGH	(JC244743M)	*05 Jan 2015
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR BHUPENDER SINGH	(JC244789P)	*13 Feb 2015
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR BHUPINDER SINGH	(JC244793X)	*06 Jan 2015
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR SURENDRA PRASAD KUSHWAHA	(JC244864N)	01 Jan 2015

NAIB RISALDAR VILAS PATIL	(JC244865W)	01 Jan 2015
NAIB RISALDAR KAMLESH BANKHEDE	(JC244867F)	01 Jan 2015
NAIB RISALDAR RAKHA HARI PANDIT	(JC244878N)	*05 Jan 2015
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR TEJ SINGH	(JC244913L)	*17 Mar 2015
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR HARIMUKH SINGH	(JC244986X)	*21 Feb 2015
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR AJAD SINGH CHAUHAN	(JC245040X)	*07 Jan 2015
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR KISTURA RAM CHOUDHARY	(JC245058N)	01 Jan 2015
NAIB RISALDAR MAHENDRA SINGH KUSHWAH	(JC245061N)	01 Jan 2015
NAIB RISALDAR SHRAVAN KUMAR DOOT	(JC245120P)	01 Jan 2015
NAIB RISALDAR SATBIR SINGH	(JC245121X)	01 Jan 2015
NAIB RISALDAR RAVENDRA SINGH	(JC245475A)	*16 Jan 2015
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR REWAT SINGH	(JC245799L)	*03 Jan 2015
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR PRASNTA KUMAR SINGH	(JC245818L)	*03 Jan 2015
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR KEWAL KRISHAN	(JC245035M)	*29 Apr 2015
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 11 Jan 2015 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR MUNGDE BHIMRAO HANMANT	(JC244166L)	*02 Mar 2015
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Feb 2015 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR SHIV BYAS SHUKLA	(JC244195A)	01 Feb 2015
NAIB RISALDAR NARENDER JIT	(JC244938X)	*11 Feb 2015
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Feb 2015 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR BASTEE RAM YADAV	(JC245129K)	01 Feb 2015
NAIB RISALDAR SATWINDER SINGH	(JC245179P)	01 Feb 2015
NAIB RISALDAR RAJESH S	(JC245351L)	01 Feb 2015
NAIB RISALDAR VIJAY KUMAR	(JC245353W)	*03 Feb 2015
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Feb 2015 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR RAJU RAMAN	(JC245366N)	*04 Feb 2015
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Feb 2015 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR RAMGYAN SINGH PRAJAPAT	(JC246031H)	01 Feb 2015
NAIB RISALDAR VIRENDER KUMAR	(JC246040K)	01 Feb 2015
NAIB RISALDAR DHARMENDRA SINGH	(JC245177K)	*17 Feb 2015
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 03 Feb 2015 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR BHAGWANT SINGH	(JC243977K)	*02 Mar 2015
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Mar 2015 without effect on pay and allowances)		

NAIB RISALDAR DWARAPU REDDY RN RAO	(JC244167N)	*02 Mar 2015
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Mar 2015 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR LAIJU G	(JC244828H)	*02 Mar 2015
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Mar 2015 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR RAJINDER KUMAR	(JC244895N)	01 Mar 2015
NAIB RISALDAR RAJ KUMAR	(JC244977W)	01 Mar 2015
NAIB RISALDAR MUKESH KUMAR MISHRA	(JC245057L)	01 Mar 2015
NAIB RISALDAR S BABU	(JC245089N)	01 Mar 2015
NAIB RISALDAR MD TARIK ANWAR	(JC245134P)	01 Mar 2015
NAIB RISALDAR BIRPAL SINGH	(JC245168H)	*11 Mar 2015
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Mar 2015 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR HARJINDER PAL SINGH	(JC245242Y)	01 Mar 2015
NAIB RISALDAR DINESH	(JC245322W)	01 Mar 2015
NAIB RISALDAR GOVIND SINGH	(JC245447N)	01 Mar 2015
NAIB RISALDAR MANOJAN V.V	(JC246018Y)	*19 Mar 2015
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Mar 2015 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR DARSHAN SINGH	(JC246032L)	*23 Mar 2015
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Mar 2015 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR RANBIR SINGH	(JC243978M)	*04 Apr 2015
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Apr 2015 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR MURUGANANDAM S	(JC244233L)	*04 Apr 2015
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Apr 2015 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR PAWAN KUMAR	(JC244485X)	*05 May 2015
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Apr 2015 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR SUBHASH CHANDRA	(JC244536A)	*04 Apr 2015
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Apr 2015 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR LAKHWINDER SINGH	(JC244547M)	*13 Apr 2015
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Apr 2015 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR SATYAVIR SINGH	(JC244999P)	01 Apr 2015
NAIB RISALDAR KULWANT SINGH	(JC245006X)	*13 Apr 2015
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Apr 2015 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR RAFIUL ALAM BISWAS	(JC245090H)	01 Apr 2015
NAIB RISALDAR TEJ SINGH	(JC245111N)	*11 Apr 2015
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Apr 2015 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR ARVIND KUMAR	(JC245283H)	*25 May 2015
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Apr 2015 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR KIRAN PODDAR	(JC245311K)	01 Apr 2015
NAIB RISALDAR HARISH CHAND YADAV	(JC245691N)	01 Apr 2015
NAIB RISALDAR MANOJ KUMAR B	(JC245692W)	01 Apr 2015
NAIB RISALDAR D O SUNIL KUMAR	(JC245853N)	01 Apr 2015
NAIB RISALDAR SHEO NARAYAN YADAV	(JC245908M)	01 Apr 2015

NAIB RISALDAR KANCHERLA SUBBA RAO	(JC246388Y)	*06 Apr 2015
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Apr 2015 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR ARVIND SHUKLA	(JC245245M)	*23 May 2015
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 10 Apr 2015 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR AJITH KUMAR PR	(JC245280P)	*23 May 2015
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 10 Apr 2015 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR MANGAT RAM	(JC245104X)	*11 May 2015
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 13 Apr 2015 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR RAJESH SINGH TOMAR	(JC244584A)	01 May 2015
NAIB RISALDAR SUDARSHAN KUMAR	(JC244816N)	01 May 2015
NAIB RISALDAR VIRENDRA SINGH	(JC245103P)	01 May 2015
NAIB RISALDAR RAM DEO YADAV	(JC245147M)	*12 May 2015
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 May 2015 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR PARBAT SINGH BALA	(JC245886Y)	*05 May 2015
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 May 2015 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR RAJ KARAN SINGH	(JC245909P)	01 May 2015
NAIB RISALDAR ASHOK KUMAR BAGHEL	(JC245911M)	01 May 2015
NAIB RISALDAR B A GOVINDA RAO	(JC245968F)	01 May 2015
NAIB RISALDAR S VIJAYA RAJ	(JC246273L)	*26 May 2015
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 May 2015 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR BANARSI DASS	(JC245277P)	01 Jun 2015
NAIB RISALDAR RAJINDER KUMAR	(JC245306Y)	01 Jun 2015

RAJEEV JAUHARI
Under Secretary

ARMY BRANCH

No. 247, the 22nd September 2015—The President is pleased to permit the undermentioned officer to retire with permission to retain his rank and wearing of uniform :-

TERRITORIAL ARMY

RETIREMENT

Lt Col Pankaj Kumar	TA-42313	ENGR (TA)	31 Mar 2015 (AN)
Lt Col AN Pandeya	TA-42138	(Infantry)	30 Jun 2015

B. B. JOSHI
Under Secretary

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2015

UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015
www.dop.nic.in